



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 23]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 4—जून 10, 2011 (ज्येष्ठ 14, 1933)

No. 23]

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 4—JUNE 10, 2011 (JYAISTHA 14, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the
Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 जून 2011

रक्षा (एम एस)/अनुभाग

सं. 221, दिनांक 13 अप्रैल 2011—राष्ट्रपति, अपने अवैतनिक वैयक्तिक स्टाफ में 01 मार्च 2011 से निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं :—

अवैतनिक थल सेना एडीसी : कवचित कोर

(आईसी-27606) लै जनरल ए के सिंह, अ वि से मै, से मै, वि से मै

(आईसी-24656) लै जनरल प खन्ना, प वि से मै, अ वि से मै, वि से मै (सेवा निवृत्त) के स्थान पर।

आर सुन्दर
अवर सचिव

वित्त प्रभाग

सं. 222, दिनांक 13 अप्रैल 2011—राष्ट्रपति, भारत रक्षा लेखा सेवा (1974) की अधिकारी डॉ. विजयलक्ष्मी के. गुप्ता को रक्षा मंत्रालय में दिनांक 01 अप्रैल, 2011 के पूर्वाह्न से सचिव (रक्षा वित्त) के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री अशोक झा को रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग) में दिनांक 22 फरवरी, 2011 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक, उप वित्तीय सलाहकार के रूप में नियुक्त करते हैं।

टी एच फ्रैंकलिन
उप वित्तीय सलाहकार (स्थापना/मु का)

सं. 223, दिनांक 14 अप्रैल 2011--सूचना का अधिकार, अधिनियम, 2005 के खण्ड 5(2) और 19(1) में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन और इस विषय में पहले जारी की गई सभी अधिसूचनाओं और संशोधनों का अतिक्रमण करते हुए रक्षा मंत्रालय (वित्त) के निम्नलिखित अधिकारियों को, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों के रूप में और उनके अपीलीय प्राधिकारियों को विशिष्ट मामलों में उनके नाम के आगे दर्शाए गए अनुसार पदनामित किया जाता है :--

क्रम सं.	केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी का नाम	पदनाम	टेलीफोन नं.	विषय वस्तु	अपील प्राधिकारी का नाम, पदनाम व टेलीफोन नं.
1	2	3	4	5	6
1.	श्री एस के जस्सल	सविस (एमओ)	23014890	निम्नलिखित प्रस्तावों पर वित्तीय सहमति लेना :-- (i) रक्षा मंत्रालय, सचिवालय, मुख्य प्रशासन अधिकारी, डी पी आर, सुरक्षा कार्यालय, स्वागत संगठन और इतिहास अनुभाग (ii) रक्षा मंत्रालय (सिविल) बजट और रक्षा (पेंशन) बजट तैयार करना (iii) प्रतिनियुक्त (सेना, वायु सेना और नौ सेना अध्यक्षों के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल)	श्री टी एच फ्रेंकलिन उप-वि सला (ई/एमओ) फोन नं 23012180
2.	श्री संदीप लखनपाल	अनुभाग अधिकारी (बाह्य)	23016539	रक्षा लेखा विभाग से संबंधित सभी मामले	श्री अमित कौशिश, वि सला (अधिप्राप्ति) एवं अपर सचिव फोन नं 23012915
3.	श्री एस सी जाना	सविस (बजट)	23012558	(i) रक्षा बजट से संबंधित सभी मामले, (ii) उच्चतर रक्षा प्रबंधन पर मंत्री समूह की रिपोर्ट पर उठने वाले मामलों का समन्वय, (iii) रक्षा मंत्रालय और सेना मुख्यालय में प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन, (iv) डी पी एम, डी पी पी और एकीकृत वित्तीय सलाहकार (प्रणाली) से संबंधित मामले, (v) संसदीय प्रश्नों का समन्वय	श्रीमती रीचा मिश्रा नि (वित्त/बजट) फोन नं 23012554
4.	श्री रविन्द्र कुमार	सविस (नौसेना/ए)	23011232	निम्नलिखित प्रस्तावों पर वित्तीय सहमति प्राप्त करना :--(i) नौ सेना को प्रतिनियुक्त और जन शक्ति की जरूरत, (ii) नौसेना के प्रापण संबंधी मामले, (iii) नौसेना से संबंधित अन्य मामले	श्री बी के मुखोपाध्याय नि (वित्त/नौसेना) फोन नं 23792076
5.	श्री अनूप सिंह	सविस (रक्षा उत्पादन)	23016392	निम्नलिखित प्रस्तावों पर वित्तीय सहमति लेना :-- (i) रक्षा उत्पादन विभाग (ii) आयुध निर्माणी बोर्ड (iii) रक्षा प्रदर्शनी संगठन	श्री चन्द्र प्रकाश नि (वित्त/रड) फोन नं. 23012301
6.	श्री एस एस महर	सविस (रक्षा आपूर्ति)	23015227	निम्नलिखित प्रस्तावों पर वित्तीय सहमति लेना :-- (i) रक्षा मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, (ii) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए विदेशी विनियम सहित पूंजीगत तथा राजस्व बजट,	श्री चन्द्रप्रकाश निदेशक (वि/पीएसयू) फोन नं 23012301

1	2	3	4	5	6
7.	श्री रवि कत्याल	सविस (ओ)	23014929	निम्नलिखित प्रस्तावों (केवल पूंजीगत अधिग्रहण) पर वित्तीय सहमति लेना :-- (i) रक्षा आयुध (ii) लेखा परीक्षा पैराओं का समन्वय (iii) भूमि प्रणाली से संबंधित मामले (iv) शस्त्र और गोलाबारूद की अधिप्राप्ति	श्री डी के गुप्ता नि (वित्त/सेना/अधि) फोन नं 23016076
8.	श्री वी के वालिया	सविस (ओ-2)	23013085	निम्नलिखित प्रस्तावों (केवल राजस्व स्वरूप के मामले) पर वित्तीय सहमति लेना :-- (i) वस्त्र संबंधी मदें, पर्वतारोहण और रक्षा आयुद्ध (ii) हानियों को विनियमित करना, (iii) केन्द्रीय आयुद्ध डिपुओं का आधुनिकीकरण (iv) कम्प्यूटर इन्वेंट्री कंट्रोल प्रोजेक्ट, (v) बी-पोतों की व्यवस्था	श्रीमती रीचा मिश्रा निदेशक (वि/बजट-ओ)
9.	श्री सन्दीप मदान	सविस (वायु/संगठन)	23377378	निम्नलिखित प्रस्तावों पर वित्तीय सहमति लेना :-- (i) भारतीय वायु सेना के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति/शिष्टमंडल/अनुदेश/प्रशिक्षण आदि का पाठ्यक्रम, (ii) भारतीय वायु सेना की नई यूनियों के लिए जनशक्ति की संस्वीकृति लेना तथा पॉलिसी पेज और पॉलिसी पेज संशोधन की अनुमति लेना, (iii) वायु सेना की उन्नयन और पदों का सृजन	उप वि स (वायु/संगठन) फोन नं 23012394
10.	श्री ए के चौबे	सविस (वायु/प्राव)	23010231/ 7262	निम्नलिखित प्रस्तावों पर वित्तीय सहमति लेना :-- (i) वायु सेना के लिए मांग, (ii) करार, संविदाएं प्रशिक्षण उपस्कर, सामान आदि की आपूर्ति (iii) एयर स्टाफ उपस्करनीति समिति/उप समिति	उप नि (वायु/प्राव) फोन नं 23012394
11.	श्री सेब्टीन जोसफ	सविस (जीएस)	23014928	निम्नलिखित प्रस्तावों पर वित्तीय सहमति लेना :-- (i) रक्षा मंत्रालय की जी एस शाखा द्वारा भेजे गए प्रस्ताव/फाइल/कागजात (ii) सेना स्थापनाओं को खड़ा करना, पुनरीक्षा करना, पुनर्गठन करना (iii) संयुक्त राष्ट्र में तैनाती तथा इससे संबंधित नीतिगत मामले (iv) मुख्यालय, आईडीएस तथा इसका बजट (v) सेना कार्मिकों और मुख्यालय आईडीएस अधिकारियों के प्रतिनियुक्ति संबंधी प्रस्ताव (vi) तीनों सेनाओं सहित सेना और प्रशिक्षण स्थापनाओं के प्रशिक्षण से संबंधित मामले (vii) खेलकूद एनसीसी, सैनिक स्कूल	श्री वी रामकुमार, उपनि (जीएस) फोन नं 23016327
12.	श्री के एस पंचपाल	सविस (एजी)	23013198	निम्नलिखित प्रस्तावों पर वित्तीय सहमति लेना :-- (i) सेना तथा रक्षा सिविलियन कार्मिकों के वेतन व भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें	श्री ए के गंभीर, उपविस (एजी) फोन नं 23012301

1	2	3	4	5	6
				(ii) सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण (iii) अफसर रैंक से निचले स्तर के कार्मिक	
13.	श्री लाजपत राय	सविस (क्यू)	23011380	निम्नलिखित प्रस्तावों पर वित्तीय सहमति लेना :-- (i) खाद्य सामग्री की अधिप्राप्ति (ii) सीएसडी, डीजीडीई के बजट और प्रशासनिक मामलों की मॉनिटरिंग	श्री एस सी सागर नि (वित्त/क्यू-एमएस) फोन नं 23014003
14.	श्रीमती पी एल सहगल	सविस (ओ 1 ए)	23093534	निम्नलिखित प्रस्तावों पर वित्तीय सहमति लेना :-- (i) चिकित्सा सामान/वेट सामान और संबंधित सामान की अधिप्राप्ति (ii) ड्रग्स के प्रपत्र और मांग पत्र की पुनरीक्षा की संवीक्षा करना (iii) पी ई/डब्ल्यू ई की दर सूचियों, उन्हें बनाए रखना, स्वीकार करना, पुनरीक्षा करना	श्री एस सी सागर निदेशक (वित्त/क्यू-एमएस) फोन नं 23014003
15.	श्री पी एल जालवा	सविस (आरएनडी)	23007535	निम्नलिखित प्रस्तावों पर वित्तीय सहमति लेना :-- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन	डॉ एस सी पान्डेय, अपर वित्तीय सलाहकार (पी) एवं संयुक्त सचिव फोन नं 23013557
16.	श्री के सी मीना	सविस (निर्माण)	23011953	निम्नलिखित प्रस्तावों पर वित्तीय सहमति लेना :-- (i) वार्षिक बड़े निर्माण कार्यक्रम के तहत रक्षा निर्माण कार्य (ii) इंजीनियर्स इन चीफ शाखा के प्रशासनिक/अधिप्राप्ति तथा रक्षा भूमि संबंधी मामले (iii) रक्षा पूल आवास की हकदारी, आबंटन तथा आवास बनाए रखने से संबंधित नीतिगत मामले (iv) रक्षा प्रयोजनों के लिए भवन किराए पर लेना	श्री पी के सिंह, निदेशक (वित्त/नि एवं बार्डर रोड) फोन नं. 23012057
17.	श्री विक्रान्त सचदेवा	सविस (बार्डर रोड)	23017715	निम्नलिखित प्रस्तावों पर वित्तीय सहमति लेना :-- (i) सीमा सड़क संगठन (ii) अधिप्राप्ति प्रस्तावों की संवीक्षा, निर्माण कार्यों, हानियों को विनियमित करना (iii) बजट तैयार करना तथा अनुमोदित कराना (iv) सीमा सड़क संगठन के संबंध में वार्षिक कार्य योजना	श्री पी के सिंह, निदेशक (वित्त/निर्माण एवं बार्डर रोड) फोन नं 23012057
18.	श्री एस एस महर	सविस (रक्षा आपूर्ति)	23015227	निम्नलिखित प्रस्तावों पर वित्तीय सहमति लेना :-- (i) रक्षा आपूर्तियां, डी जी क्यू ए, मानकीकरण निदेशालय (ii) डीएडी के लिए आईएफए तथा (iii) रक्षा मंत्रालय (वित्त) के लिए आईएफए	श्री चरनजीत लाल, नि वित्त (रक्षा आपूर्ति) फोन नं 23015171
19.	श्री आई डी प्रसाद	सविस (पेंशन)	23792590	निम्नलिखित प्रस्तावों पर वित्तीय सहमति लेना :-- सशस्त्र सेनाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार की पेंशन तथा इनसे संबंधित नीतिगत मामले	श्री के के कोहली, उप वित्तीय स (पेंशन) फोन नं 23018756

1	2	3	4	5	6
20.	श्री सुमन बारा	अनुभाग अधि (सीजी)	23011115	निम्नलिखित प्रस्तावों पर वित्तीय सहमति लेना :-- (i) तट रक्षक संगठन (ii) तट रक्षक संगठन के लिए प्रतिनियुक्ति तथा जनशक्ति की जरूरत (iii) तट रक्षक संगठन के अधिप्राप्ति संबंधी मामले	श्री बी बी सक्सेना उपविस (सीजी) फोन नं 23010853
21.	श्री संजय अरोड़ा	सविस (नौसेना/डी)	23018178	निम्नलिखित प्रस्तावों पर वित्तीय सहमति लेना :-- (i) मैरीटाइम तथा प्रणाली, नौसेना अधिग्रहण (ii) नौसेना से संबंधित निर्माण कार्य परियोजनाओं की संवीक्षा	श्री वेद प्रकाश, निदेशक (वित्त/नौसेना/अधि) फोन नं 23013471
22.	श्री एस पी एस तेवतिया	सविस (वायु सेना/ बजट)	23010231/ 7385	निम्नलिखित प्रस्तावों पर वित्तीय सहमति लेना :-- (i) वायु सेना अधिग्रहण (ii) युद्ध तथा निर्देशित हथियारों से संबंधित प्रस्तावों की समीक्षा (iii) पुनः ईंधन भरने संबंधी सूचनाओं से संबंधित प्रस्ताव (iv) राशन तथा वस्त्र संबंधी मदों का मानक (v) बजट प्राक्कलनों तथा वित्तीय प्राक्कलनों एवं विदेशी मुद्रा विनिमय प्राक्कलनों का बजट तैयार करना तथा प्रस्तुत करना	श्री जैम्स मैथ्यू, निदेशक (वायु/अधि) फोन नं 23014708
23.	श्री बाबूलाल	उप निदेशक (राभा)	23013395	(i) रक्षा मंत्रालय (वित्त) की हिंदी सलाहकार समिति (ii) राजभाषा नीति का कार्यान्वयन (iii) संसदीय राजभाषा समिति के लिए दस्तावेज तैयार करना (iv) अनुवाद कार्य (v) राजभाषा अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रगति की मॉनिटरिंग करना	श्री टी एच फ्रैंकलिन उप विस (स्था/एमओ) फोन नं 23012180
24.	श्री आर सी मीना	सविस (स्था)	23792205	(i) रक्षा मंत्रालय वित्त में सभी प्रशासनिक मामले (ii) उपर्युक्त क्रम संख्या 1 से 23 में कवर न होने वाले शेष सभी मामले।	श्री टी एच फ्रैंकलिन उप विस (स्था/एमओ) फोन नं 23012180

टिप्पणी :--

अधिसूचना में निर्दिष्ट किसी भी अधिकारी के कार्यभार से त्यागपत्र देने या प्रशिक्षण पर जाने या लंबी छुट्टी पर जाने की स्थिति में उसका कार्य लिंक अफसर या जिस अफसर को कार्य सौंपा गया है वह नियमित पदधारी के कार्यभार ग्रहण करने तक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा।

टी एच फ्रैंकलिन
उप विस (स्था/एमओ)

सेना शाखा

सं. 224, दिनांक 14 अप्रैल 2011--राष्ट्रपति जी, निम्नलिखित की सहर्ष नियुक्ति करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी आयोग

ले के पद पर दिनांक 10 दिसम्बर 2005 से

अजीत सिंह (आईसी-67657के), इन्फैंट्री की वरिष्ठता नरेन्द्र सिंह (आईसी-67656एफ), इन्फैंट्री के नीचे जिनका नाम भारत के राजपत्र में दिनांक 30 दिसम्बर 2006 को प्रकाशित हो चुका है।

पी के शास्त्री
मेजर
ए एम एस 8बी

सेना शाखा

सं. 225, दिनांक 15 अप्रैल 2011--राष्ट्रपति, थल सेना अनुदेश 7 विशेष 66 के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों का उनके 03 मार्च 2011 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर लेफ्टिनेंट के रैंक में 03 मार्च 2011 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है :--

नाम, एसएस सं., आईसी सं. आर्बिटिट एवं आर्म/सर्विस
रविन्द्र सिंह जमवाल (एसएस-38891एक्स)(आईसी-65146एफ),
सिग्नल्स

दिनेश कुमार गुप्ता (एसएस-38904के)(आईसी-65147के), सिग्नल्स
उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी

वेतन वृद्धि की तारीख, 07 मार्च 1999

पदोन्नति के लिए तारीख, 07 मई 2000

उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारियों जिन्हें सेवा के दसवें वर्ष स्थायी कमीशन प्रदान किया गया है तथा जिन्हें सेवा के आठवें वर्ष में स्थायी कमीशन प्रदान किया गया उनकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी है।

राष्ट्रपति, यथा संशोधित विशेष थल सेना अनुदेश 7 विशेष 66 अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों का उनके 18 मार्च 2011 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर लेफ्टिनेंट के रैंक में 18 मार्च 2011 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है :--

नाम, एसएस सं., आईसी सं. आर्बिटिट एवं आर्म/सर्विस

नवरत्न जैमन (एसएस-41798एफ)(आईसी-72799एल), सिग्नल्स

उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी:--

वेतन वृद्धि के लिए तारीख, 21 मार्च 2004

पदोन्नति के लिए तारीख, 21 अप्रैल 2004

उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारी जिन्हें सेवा के पांच वर्ष बाद स्थायी कमीशन प्रदान किया गया है उसकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी है।

वी एस रानडे
कर्नल
कर्नल सेना सचिव-7

सेना शाखा

सं. 226, दिनांक 15 अप्रैल 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं :--

नियमित सेना

अल्प सेवा आयोग

ले के पद पर

निम्नलिखित 01 जेन्टलमैन कैडेट्स, जो अल्पकालीन सेवा आयोग-88 पाठ्यक्रम के हैं, ने छः मास का समय जो कि 19 सितम्बर 2009 को शुरू हुआ था, ले के पद पर पूरा कर लिया है। उनको उसी दिनांक 19 सितम्बर 2009 से 10 वर्ष के लिए ले के पद पर अल्पकालीन सेवा आयोग विशेष सेनानुदेश 3/एस/98, यथासंशोधित, के अन्तर्गत [जो कि भारत सरकार के पत्र संख्या बी/32313/पी सी/ए जी/पी एस-2(ए)921/डी (ए जी) दिनांक 20 जुलाई 2006 के साथ पढ़ा जाए] प्रदान किया जाता है :--

नाम, एसएस नं. एवं आर्म/सर्विस

दीपज्योति डेका (एसएस-43673एच), इन्फैंट्री

निम्नलिखित 01 जेन्टलमैन कैडेट्स, जो अल्पकालीन सेवा आयोग-88 पाठ्यक्रम के हैं, ने छः मास का समय जो कि 19 सितम्बर 2009 को शुरू हुआ था, ले के पद पर पूरा कर लिया है। उनको उसी दिनांक 19 सितम्बर 2009 से 10 वर्ष के लिए ले के पद पर अल्पकालीन सेवा आयोग विशेष सेनानुदेश 3/एस/98, यथासंशोधित, के अन्तर्गत [जो कि भारत सरकार के पत्र संख्या बी/32313/पी सी/ए जी/पी एस-2(ए)921/डी (ए जी) दिनांक 20 जुलाई 2006 के साथ पढ़ा जाए] प्रदान किया जाता है :--

नाम, एसएस नं. एवं आर्म/सर्विस

ज्ञान सागर (एसएस-43734पी), एएससी

पी के शास्त्री
मेजर
सहायक सेना सचिव 8बी

सेना मुख्यालय

ईएनसी शाखा

सं. 227, दिनांक 18 अप्रैल 2011--

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय

सक्षम प्राधिकारी सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा की श्रीमती प्रवीण त्रेहन को सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा नियमावली, 2004 के नियम 7(3) के अंतर्गत अस्थाई निजी सचिव (ग्रुप बी राजपत्रित) के पद पर 01 जनवरी 2011 से 30 जून तक अथवा इनकी सेवा निवृत्ति अथवा नियमित पदधारी उपलब्ध होने तक, जो भी पहले जो, उस समय तक के पद पर नियुक्त करते हैं।

यह नियुक्ति पूर्णतया कामचलाऊ आधार पर है तथा प्रशासनिक कारणों अथवा नियमित पदधारी उपलब्ध होने पर बिना सूचना के समाप्त की जा सकती है।

अनिल कुमार लारोइया
उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासन)

एकीकृत मुख्यालय : रक्षा मंत्रालय (नौसेना)

सं. 228, दिनांक 18 अप्रैल 2011--राष्ट्रपति द्वारा रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एमएफ/1506/डीईएस/अनु-I/03 दिनांक 21 जनवरी 2008 के अधीन भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा (संभारिकी कैंडर - जुलाई/अगस्त 2005 में सीधी भर्ती योजना के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियां उनके नाम के सामने दी गई तिथि से करते हैं :--

सब ले के रैंक में परखाधीन

कार्यकारी शाखा (संभारिकी कैंडर) --अगस्त 2005

नाम, निजी सं., कमीशन की किस्म एवं कमीशन की तिथि

प्रीति पोद्दार (05773-डब्ल्यू), अस्थायी, 07 जुलाई 2005

राष्ट्रपति द्वारा रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एमएफ/1506/डीईएस/अनु-I/03 दिनांक 21 जनवरी 2008 के अधीन भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा (संभारिकी कैंडर - जुलाई/अगस्त 2005 में सीधी भर्ती योजना के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियां उनके नाम के सामने दी गई तिथि से करते हैं :--

सब ले के रैंक में परखाधीन

कार्यकारी शाखा (संभारिकी कैंडर) --अगस्त 2005

नाम, निजी सं., कमीशन की किस्म एवं कमीशन की तिथि

रत्नाप्रभा विजय कार्ले (05774-वाई), अस्थायी, 15 जुलाई 2005

राजेश राजगोपालन

कमांडर

जे डी एम पी आर

(ओआई एंड आर)

वित्त प्रभाग

सं. 229, दिनांक 19 अप्रैल 2011--राष्ट्रपति, भारतीय रक्षा लेखा सेवा (1994) के अधिकारी श्री पंकज कुमार सिंह की रक्षा मंत्रालय (वित्त) प्रभाग में निदेशक (वित्त) के रूप में 19 मार्च 2011 से आगे एक महीने के लिए केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की अवधि में विस्तार करते हैं।

राष्ट्रपति, भारतीय रक्षा लेखा सेवा (1990) के अधिकारी विश्वजीत सहाय की रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग) में वित्त प्रबंधक के रूप में दो वर्ष की अवधि के लिए 11 जून 2011 से 10 जून 2013 तक विस्तार करते हैं।

टी एच प्रेंकलीन
उप वित्तीय सलाहकार (स्था/मुका)

वायु सेना

सं. 230, दिनांक 19 अप्रैल 2011--माननीय राष्ट्रपति महोदया, अल्प सेवा कमीशन (परिवीक्षा पर) प्रदान किए गए निम्नलिखित अफसर की सेवा की पुष्टि करते हैं, जो उनके नाम के आगे लिखी तारीखों से प्रभावी होगा :--

भारतीय वायु सेना

वैमानिक इंजीनियरी (इलैक्ट्रॉनिक) शाखा

प्ला अफ शुचि गौतम (30354), 20 दिसम्बर 2008 से प्रभावी

माननीय राष्ट्रपति महोदया अल्प सेवा कमीशन (परिवीक्षा पर) प्रदान किए गए निम्नलिखित अफसर की सेवा को स्थायी करते हैं, जो उनके नाम के आगे लिखी तारीख से प्रभावी होगा :--

भारतीय वायु सेना

उड़ान (पायलट) शाखा

प्ला अफ अभिषेक (30182), 20 दिसम्बर 2008 से प्रभावी

तरुण खरे

विंग कमांडर

संयुक्त निदेशक

कार्मिक अफसर-3(डी)

सेना सचिव शाखा

सं. 231, दिनांक 20 अप्रैल 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर जनरल के मूल रैंक में

आईसी सं., रैंक, नाम, आर्म व मेजर जनरल के मूल रैंक की प्रभावी तिथि

(आईसी-34646) ब्रिगे अनिरुद्ध बैनर्जी, ईएमई

(21 सितम्बर 2009 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)

(आईसी-31348) ब्रिगे राजन बक्शी, 17 होर्से

(07 नवम्बर 2009 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)

- (आईसी-31351) ब्रिगे आर एन सिंह, एसएम, वीएसएम, असम
(07 नवम्बर 2009 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)
- (आईसी-35040) ब्रिगे आर एम मित्तल, एसएम, इंजी
(23 अप्रैल 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)
- (आईसी-31559) ब्रिगे सदीप कुमार, वीएसएम, आईसी
(01 अप्रैल 2009 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02 जनवरी 2008 से दी जायेगी)
- (आईसी-36527) ब्रिगे आर सी चड्ढा, 66 एआर
(07 नवम्बर 2009 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02 जनवरी 2008 से दी जायेगी)
- (आईसी-31633) ब्रिगे ए के साहनी, एसएम, वीएसएम, आर्टी (जीसी)
(07 नवम्बर 2009 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02 जनवरी 2008 से दी जायेगी)
- (आईसी-31635) ब्रिगे वाई संग्रा, वीएसएम, आर्टी
(01 अक्टूबर 2009 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02 जनवरी 2008 से दी जायेगी)
- (आईसी-31638) ब्रिगे ओम प्रकाश, एसएम, कुमाँऊ
(07 नवम्बर 2009 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03 जनवरी 2008 से दी जायेगी)
- (आईसी-31640) ब्रिगे आर के राणा, एसएम, वीएसएम, राज रिफ
(07 नवम्बर 2009 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03 जनवरी 2008 से दी जायेगी)
- (आईसी-31642) ब्रिगे एन पी पाधि, -इंजी
(27 अप्रैल 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03 जनवरी 2008 से दी जायेगी)
- (आईसी-31650) ब्रिगे अर्जुन मेनन, 70 एआर
(08 जनवरी 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03 जनवरी 2008 से दी जायेगी)
- (आईसी-31653) ब्रिगे ए के भल्ला, 89 एआर
(07 नवम्बर 2009 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 04 जनवरी 2008 से दी जायेगी)
- (आईसी-31658) ब्रिगे यू एम राजावेलू, एसएम, राज रिफ
(08 जनवरी 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 04 जनवरी 2008 से दी जायेगी)
- (आईसी-31660) ब्रिगे ए के सेन, 11 जीआर
(23 अप्रैल 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 04 जनवरी 2008 से दी जायेगी)
- (आईसी-31672) ब्रिगे वी एस डडवाल, एसएम, वीएसएम, गढ़वाल राइफल
(08 जनवरी 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 04 जनवरी 2008 से दी जायेगी)
- (आईसी-32684) ब्रिगे एम एस पिल्ललाई, एसएम, इंजी
(27 अप्रैल 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 05 जनवरी 2008 से दी जायेगी)
- (आईसी-31705) ब्रिगे सन्दीप सिंह, एसएम, वीएसएम, जैक राइफल
(14 दिसम्बर 2009 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 05 जनवरी 2008 से दी जायेगी)
- (आईसी-31712) ब्रिगे पी एस रविन्द्रनाथ, एसएम, 1 जी आर
(26 अप्रैल 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 05 जनवरी 2008 से दी जायेगी)
- (आईसी-31719) ब्रिगे वी एम कालिया, एसएम, आर्टी (जीसी)
(26 अप्रैल 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 05 जनवरी 2008 से दी जायेगी)
- (आईसी-31736) ब्रिगे आर भल्ला, एसएम, वीएसएम, जाट
(19 जनवरी 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 06 जनवरी 2008 से दी जायेगी)
- (आईसी-31739) ब्रिगे सी ए क्रिसनन, 4 जी आर
(11 जनवरी 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 06 जनवरी 2008 से दी जायेगी)
- (आईसी-31758) ब्रिगे ए वी बालाक्रिसनन, एओसी
(19 जनवरी 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 06 जनवरी 2008 से दी जायेगी)
- (आईसी-31793) ब्रिगे ए एस रावत, एओसी
(01 फरवरी 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 06 जनवरी 2008 से दी जायेगी)
- (आईसी-31797) ब्रिगे के एस कुम्बर, वीएसएम, मद्रास
(13 फरवरी 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 07 जनवरी 2008 से दी जायेगी)
- (आईसी-36659) ब्रिगे अनिल शर्मा, आर्टी
(16 फरवरी 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 07 जनवरी 2008 से दी जायेगी)

(आईसी-34003) ब्रिगे एम एम एस राई, विएसएम, इंजी (जीसी)

(01 अप्रैल 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 07 जनवरी 2008 से दी जायेगी)

(आईसी-34005) ब्रिगे के जे एस थिन्ड, विएसएम, 20 एल

(01 अप्रैल 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 07 जनवरी 2008 से दी जायेगी)

(आईसी-34019) ब्रिगे डी एस हुद्दा, विएसएम, 4 जीआर

(01 अप्रैल 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 08 जनवरी 2008 से दी जायेगी)

(आईसी-34036) ब्रिगे पी आर कुमार, आर्टी (जीसी)

(01 अप्रैल 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 08 जनवरी 2008 से दी जायेगी)

(आईसी-34078) ब्रिगे आर पी सक्सेना, ईएमई

(01 अप्रैल 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 08 जनवरी 2008 से दी जायेगी)

(आईसी-34086) ब्रिगे बी के शर्मा, एसएम, सिख लि

(24 अप्रैल 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 08 जनवरी 2008 से दी जायेगी)

(आईसी-34097) ब्रिगे के जे सिंह, विएसएम, मेक इंफ

(22 अप्रैल 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 09 जनवरी 2008 से दी जायेगी)

(आईसी-34098) ब्रिगे एच जे एस सचदेव, एसएम, 1 जीआर

(01 मई 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 09 जनवरी 2008 से दी जायेगी)

(आईसी-34148) ब्रिगे राय आर पी, एएससी

(01 मई 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 09 जनवरी 2008 से दी जायेगी)

(आईसी-34164) ब्रिगे के डी सिंह, मद्रास

(01 मई 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 09 जनवरी 2008 से दी जायेगी)

(आईसी-34182) ब्रिगे विरेन्द्र कुमार, मद्रास

(21 मई 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 10 जनवरी 2008 से दी जायेगी)

(आईसी-34229) ब्रिगे के एस वेनुगोपाल, विएसएम, जाट

(22 मई 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 10 जनवरी 2008 से दी जायेगी)

(आईसी-35800) ब्रिगे पी सी जगिया, विएसएम, ईएमई

(01 जून 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 10 जनवरी 2008 से दी जायेगी)

आर बी अस्थाना
निर्देशक/एमएस (एक्स)

थल सेना शाखा

सं. 232, दिनांक 20 अप्रैल 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

सेना चिकित्सा कोर

सर्ज कमां से सर्ज कैप्टन (टीएस) के पद पर

एमआर-05317वाई (75362ए) सर्ज कमां एम एस साही, 03 दिसम्बर 2010

यश पाण्डे

ब्रिगे

उपमहानिदेशक (मा सं)

सेना शाखा

सं. 233, दिनांक 21 अप्रैल 2011--राष्ट्रपति जी, निम्नलिखित की सहर्ष पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी आयोग

ले कर्नल से कर्नल (चयन द्वारा) के मूल रैंक में

वैयक्तिक सं., नाम, आर्म व मूल रैंक की तिथि

(एसएल-1810) बी एस राठौर, एसएल (क्यूएम)

(29 अक्टूबर 1993 किन्तु वरिष्ठता दिनांक 01 फरवरी 1993 से बिना वेतन एवं पेंशन पर प्रभाव के)

(वी-00398) अनिल कुमार, आरवीसी, 01 मई 2009

(वी-00416) राजन थापर, आरवीसी, 01 मई 2009

(वी-00417) के के शर्मा, आरवीसी, 01 मई 2009

(वी-00419) पी पी राणा, आरवीसी, 01 मई 2009

(वी-00402) आर वी धूमल, आरवीसी, 01 मई 2009

(वी-00407) पी बी देशमुख, आरवीसी, 01 मई 2009

- (वी-00408) सी एस ओझा, आरवीसी, 01 मई 2009
- (वी-00409) सी एस एम देसाई, आरवीसी, 01 मई 2009
- (वी-00411) पी के पुरस्ती, आरवीसी, 01 मई 2009
- ले कर्नल से कर्नल के मूल रैंक में (समयमान द्वारा)
- आईसी सं., नाम, आर्म व सबसर्टेंटिव तिथि
- (आईसी-40163डब्ल्यू) ए के सिंदे, एएडी, 19 दिसम्बर 2007
- (आईसी-42342पी) दलवीर सिंह, मैक इंफैंट्री, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42354के) वी के पाण्डे, आर्टी, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42358ए) आर के शर्मा, ईएमई, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42375ए) एस एस रलहन, एएसपी, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42388एक्स) जी विनोद, इंफैंट्री, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42432डब्ल्यू) पी के शर्मा, सिग्नल्स, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42440पी) आर एस चौहान, इंफैंट्री, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42467एम) पी सहगल, एसी, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42484एम) राजेश ककर, सिग्नल्स, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42505एक्स) आर के सिन्हा, एएडी, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42534एम) जे एस अहलावत, इन्ट कोरप्स, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42536एक्स) त्रिजदीप सिंह, एसी, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42551एम) पी वी राजकर, इंफैंट्री, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42581के) नीलाम्बर झा, इंजीनियर्स, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42593वाई) एम एल शर्मा, आर्टी, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42619एच) गौतम बनर्जी, आर्टी, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42620एक्स) डी एस कटोच, इंफैंट्री, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42627एफ) सतेन्द्र सिंह, आर्टी, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42639डब्ल्यू) आर राजेन्द्रन, इंफैंट्री, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42643वाई) के विशनोय, इंफैंट्री, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42651एक्स) टी आर नरायणन, सिग्नल्स, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42654एल) ओमवीर सिंह, इंफैंट्री, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42655एन) वी आर कुशवाहा, इंफैंट्री, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-44427के) एस जे गायकवाड, ईएमई, 20 दिसम्बर 2010
- (आईसी-44431एम) संजय भाटिया, इंजीनियर्स, 20 दिसम्बर 2010
- (आईसी-44454एन) कुलदीप सिंह, इंजीनियर्स, 20 दिसम्बर 2010
- (आईसी-44459एम) करुनेश कुमार, इंजीनियर्स, 20 दिसम्बर 2010
- (आईसी-44467एल) एच एस गिरीवाल, सिग्नल्स, 20 दिसम्बर 2010
- (आईसी-45332डब्ल्यू) रणवीर सिंह, एसी, 09 नवम्बर 2010
- (आईसी-41708पी) के वी एम राव, इंफैंट्री, 17 दिसम्बर 2009
- (आईसी-42152एच) एस सी राय, ईएमई, 09 जून 2010
- (आईसी-42445एन) पी के शर्मा, एएससी, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42514वाई) वीरेन्द्र कुमार, इंफैंट्री, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42532एफ) वी एस प्रभाकर, इंजीनियर्स, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42554ए) एम एस हजरा, इंफैंट्री, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42672एन) पी ए आयर, मैक इंफैंट्री, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-45018एच) जे के पुन, इंफैंट्री, 26 अप्रैल 2009
- (आईसी-45106वाई) एस घोष, आर्टी, 26 अप्रैल 2009
- (आईसी-45337पी) ए एस आर नायडू, एसी, 09 नवम्बर 2010
- (आईसी-40893एफ) गणेश प्रसाद, आर्टी, 24 दिसम्बर 2008
- (आईसी-42326एक्स) अवतार सिंह, इंफैंट्री, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42335वाई) ए के यादव, एओसी, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42338एम) पी के सिंह, इंफैंट्री, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42359एच) आर के सिरोन, आर्टी, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42371के) एन पी वी राघवन, आर्टी, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42403एफ) मनोज कुमार राऊत, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42410एक्स) मिसर गुणदगी, एओसी, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42423एफ) आर के सुयाल, इन्ट कोरप, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42436एम) अनिल कुमार साह, आर्टी, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42454पी) एस के भट्ट्याचार्य, आर्टी, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42457एच) के.सी बालाचन्द्रन, आर्टी, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42461एल) ललित वी गैरोला, एसी, आर्टी, 15 दिसम्बर 2010.
- (आईसी-42462एन) आर के गौतम, इंफैंट्री, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42466के) आर वी सिंह, आर्टी, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42473ए) रुद्रा सिंह, इंफैंट्री, 15 दिसम्बर 2010

- (आईसी-42477डब्ल्यू) आर कुरेन, एएडी, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42478वाई) अलोक वैद, एएससी, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42479एफ) पी एस वर्मा, इन्फैन्ट्री, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42486एक्स) बाग सिंह, इन्फैन्ट्री, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42494डब्ल्यू) पवन कुमार, एओसी, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42502के) आर पी एम पंगल, इन्फैन्ट्री, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42510एच) गुणाशकर रेड्डी, एसी, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42522एक्स) एम के बसक, सिग्नल्स, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42523ए) एच चतुर्वेदी, एएडी, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42524एच) एस एस जामवाल, इन्फैन्ट्री, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42525एल) आर थापर, गार्ड्स, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42527डब्ल्यू) ए डब्ल्यू आर मुल्ले, एएससी, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42537ए) के एस फरटियाल, इन्फैन्ट्री, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42539एल) मोहन सिंह, मैक इन्फैन्ट्री, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42547के) दलजीत सिंह, आर्टी, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42558डब्ल्यू) बदरी दत्त, एएससी, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42562वाई) एम एस चौहान, एओसी, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42563एफ) नन्द लाल सिंह, एएससी, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42566पी) वी चक्रवर्ती, एसी, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42570एक्स) प्रीतम चन्द, इन्फैन्ट्री, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42571ए) एस एस पठानिया, एसी, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42582एम) के पी हरण, सिग्नल्स, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42583पी) करमिन्दर सिंह, गार्ड्स, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42594एफ) के कुमार, सिग्नल्स, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42597पी) जी एस सिद्धू, इन्फैन्ट्री, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42600के) अमरीक सिंह, एओसी, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42612वाई) राजीव शर्मा, एएडी, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42613एफ) वी एस जामवाल, इन्फैन्ट्री, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42616पी) वी के सिंह, एसी, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42621ए) राजेश दार, ईएमई, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42624एन) सुरेश सिंह, सिग्नल्स, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42625डब्ल्यू) ए एन जाटी, इन्फैन्ट्री, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42626वाई) एम ए मथाई, इन्ट कोर्प, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42631के) आर वी माने, एएससी, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42641एन) ए शर्मा, इन्फैन्ट्री, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42648एक्स) स्टेनी रॉयसन, इन्फैन्ट्री, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42649ए) पी के कार, मैक इन्फैन्ट्री, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42653एच) सबस्तिथन के जे, इन्फैन्ट्री, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42656डब्ल्यू) आर के श्रीवास्तव, आर्टी, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42659के) ए आर शर्मा, आर्टी, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42663एम) एन घोष, इन्फैन्ट्री, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42664पी) एस मिश्रा, आर्टी, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42671एल) ए पी सिंह, आर्टी, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42722एन) ओ पी मलिक, ईएससी, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-44023एफ) तरुण शर्मा, इंजीनियर्स, 14 जून 2010
- (आईसी-44435एच) आर हरसुर, इंजीनियर्स, 20 दिसम्बर 2010
- (आईसी-44461के) ए के पाण्डे, ईएमई, 20 दिसम्बर 2010
- (आईसी-44464एक्स) सी पी वेंकेटसुला, ईएमई, 20 दिसम्बर 2010
- (आईसी-44469डब्ल्यू) आर एस समर, सिग्नल्स, 20 दिसम्बर 2010
- (आईसी-45317एफ) आर के निगम, एसी, 09 नवम्बर 2010
- (आईसी-45318के) ए एस नरायण, आर्टी, 09 नवम्बर 2010
- (आईसी-00393एफ) पी वी जोशी, आरवीसी, 26 नवम्बर 2010
- (वी-00413के) वी एस लकडा, आरवीसी, 26 नवम्बर 2010
- (वी-00414एम) अजित हांडा, आरवीसी, 26 नवम्बर 2010
- (आईसी-38420के) अनिल जोशी, एसी, 22 दिसम्बर 2005
- (आईसी-38969एक्स) वी के पंत, एएससी, 07 जून 2006
- (आईसी-40642एक्स) अलोक माथुर, ईएमई, 12 जून 2008
- (आईसी-41745एच) देवेन्द्र सिंह, ईएमई, 17 दिसम्बर 2009
- (आईसी-42041एल) जी राजाकनथान, इन्फैन्ट्री, 09 जून 2010
- (आईसी-42182ए) अजय तोमर, इन्फैन्ट्री, 09 जून 2010
- (आईसी-42316एन) ए सयनी, इन्फैन्ट्री, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42334डब्ल्यू) राकेश गोयल, इन्फैन्ट्री, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42381एन) ए के बंदोपाध्यय, इन्फैन्ट्री, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42393एच) एस के राय, इन्फैन्ट्री, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42419एम) रतन लाल मिदधा, एएससी, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42460एच) के एस सागवान, एएससी, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42499पी) राकेश चड्ढा, एएससी, 15 दिसम्बर 2010
- (आईसी-42500वाई) ए एन मुतालिक, इन्फैन्ट्री, 15 दिसम्बर 2010

(आईसी-42528वाई) राजेश शर्मा, इन्फैन्ट्री, 15 दिसम्बर 2010
 (आईसी-42530डब्ल्यू) एम के शर्मा, इंजीनियर्स, 15 दिसम्बर 2010
 (आईसी-42553एक्स) एम एस पाटिल, इन्फैन्ट्री, 15 दिसम्बर 2010
 (आईसी-42567एक्स) राज कुमार अरोड़ा, एओसी, 15 दिसम्बर 2010
 (आईसी-42602पी) वी शुक्ला, आर्टी, 15 दिसम्बर 2010
 (आईसी-42605एच) आर डी तालुकदार, इन्फैन्ट्री, 15 दिसम्बर 2010
 (आईसी-42634एक्स) राजीव कुमार शर्मा, एओसी, 15 दिसम्बर 2010
 (आईसी-42657वाई) एस राजेन, इन्फैन्ट्री, 15 दिसम्बर 2010
 (आईसी-42669एन) पी पाण्डे, इन्फैन्ट्री, 15 दिसम्बर 2010
 (आईसी-44460एफ) शशि भूषण, इंजीनियर्स, 20 दिसम्बर 2010
 (एसएल-3829एम) एस सिंह, एसएलक्यूएम, 15 दिसम्बर 2010

टी के दास
 उप निदेशक
 एमएस-8 ए

सेना शाखा

सं. 234, दिनांक 21 अप्रैल 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं :-

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर से लेफ्टि कर्नल के

आईसी सं., नाम तथा आर्म

(आईसी-57357) विवेक गोयल, इंजीनियर्स
 (आईसी-57409) हिमांशु, आर्टी
 (आईसी-57427) विनीत अग्रवाल, इंजीनियर्स
 (आईसी-57447) निर्मल कुमार, एससी
 (आईसी-57456) सुरक्ष वीर, सिग्नल्स
 (आईसी-57486) दीपक मान, आर्टी
 (आईसी-57509) आशीष माथुर, सिग्नल्स
 (आईसी-57515) सतनाम सिंह, सिग्नल्स
 (आईसी-57517) प्रकाश कृष्णन, इंजीनियर्स
 (आईसी-57542) संतोष कुमार सिंह, इंजीनियर्स
 (आईसी-57545) अग्नेल वी पैक्कट, सिग्नल्स
 (आईसी-57559) गवडे विनोद कृष्णन, आर्टी
 (आईसी-57561) विशाल जैटली, इंजीनियर्स

(आईसी-57596) मनोज कुमार गुप्ता, सिग्नल्स
 (आईसी-57645) संदीप विष्ट, इंजीनियर्स
 (आईसी-57654) स्वतन्त्र दीप, एसी
 (आईसी-57667) श्री प्रकाश शुक्ला, आर्टी
 (आईसी-57687) प्रभात पांडे, आर्टी
 (आईसी-57698) अभिषेक श्रीवास्तव, सिग्नल्स
 ----- 06 दिसम्बर 2010
 (आईसी-59553) सतीश कुमार त्यागी, इंजीनियर्स
 (आईसी-59565) श्याम, इंजीनियर्स
 ----- 11 दिसम्बर 2010

एसएल सं., नाम तथा आर्म

(एसएल-05060) राजबीर सिंह, टीईओ
 (एसएल-05061) गुलाब सिंह, टीईओ
 (एसएल-05063) सतीश कुमार एस, टीईओ
 (एसएल-05064) सावंत अनंत दामोदर, एओ
 (एसएल-05066) ब्रह्म सिंह, क्यूएम
 (एसएल-05067) वसंत कुमारन बीके, साईफर
 (एसएल-05068) राधे श्याम सिंह यादव, टीईओ
 (एसएल-05069) विजय पाल सिंह, आरओ
 (एसएल-05070) जसविंदर पाल, क्यूएम
 (एसएल-05071) सुशील कुमार पाण्डे, ईएमएई (ईई)
 (एसएल-05073) राधे श्याम पाण्डे, टीईओ
 (एसएल-05074) सत्यवीर सिंह डांगे, क्यूएम
 (एसएल-05075) लुडसे बाबा साहब भागुजी, साईफर
 (एसएल-05076) सुधाकरन नायर के पी, ईएमएई (ईई)
 (एसएल-05077) बचन सिंह, ईएमएई (ईई)
 (एसएल-05078) प्रताप सिंह, साईफर
 (एसएल-05080) बीरेन्द्र कुमार तपवाल, क्यूएम
 (एसएल-05084) लीता बन्दो, टीईओ
 (एसएल-05088) सुरेश कुमार, क्यूएम
 (एसएल-05089) पवार साहेबराव रघुनाथराव, साईफर
 (एसएल-05091) सुखदेव सिंह, साईफर
 (एसएल-05092) कृष्ण कुमार झा, साईफर
 (एसएल-05093) यू वेंकटेश्वरलू, साईफर

- (एसएल-05095) प्रताप सिंह बिष्ट, साईफर
 (एसएल-05100) नितीश चन्द्र घोष, साईफर
 (एसएल-05101) रामदेव सिंह सेंगर, टीईओ
 (एसएल-05108) योहानान डेनियल, ईएमआई (ईई)
 (एसएल-05110) शमशेर सिंह, साईफर
 (एसएल-05112) दन्ना राम, क्यूएम
 (एसएल-05113) देवाशीष सिंह, क्यूएम

----- 13 दिसम्बर 2010

स्पेशल कमीशन कप्तान से मेजर

एससी सं., नाम तथा आर्म

- (एससी-00468) सुनील दत्त यादव, एओसी
 (एससी-00469) राजिन्दर सैनी, आर्टी
 (एससी-00470) राजेन्द्र सिंह रावत, ईएमई
 (एससी-00471) दिनेश कुमार जैयसवाल, सिग्नल्स
 (एससी-00472) श्री कुमारन पिल्लई बी, एडी
 (एससी-00473) रणधीर सतीश कुमार, मैक
 (एससी-00474) राजेश्वर जसवाल, सिग्नल्स
 (एससी-00475) भुपेन्द्र सिंह, इंजीनियर्स
 (एससी-00476) देव प्रसाद एस एम, एसी
 (एससी-00477) अनिल कुमार पी, आर्टी
 (एससी-00478) परमा नन्द शर्मा, इंजीनियर्स
 (एससी-00479) एल देसिंह, आर्टी
 (एससी-00480) रमेश कुमार, आर्टी
 (एससी-00481) वनामला कृष्णा, ईएमई
 (एससी-00482) मधुसूदाननक, एएससी

----- 10 दिसम्बर 2010

अल्प-कालीन सेवा कमीशन (एससी)

ले से कप्तान

- (एससी-00564) राजेश कुमार सिंह चौहान, इन्फैन्ट्री
 (एससी-00565) अश्वनी कुमार, इन्फैन्ट्री
 (एससी-00566) कोप्पुला सत्यनारायण, एएडी
 (एससी-00567) प्रदीप एम, इंजीनियर्स
 (एससी-00568) रूप सिंह नेगी, इन्फैन्ट्री
 (एससी-00569) राजीव रंजन, ईएमई
 (एससी-00570) श्रीजेश एस, आर्टी

- (एससी-00571) विनोद कादियान, एसी
 (एससी-00572) आश्रम प्रसाद शर्मा, सिग्नल्स
 (एससी-00573) आनंद जी पनिक्कर, इंजीनियर्स
 (एससी-00574) मोहन चंद्र, इन्फैन्ट्री
 (एससी-00575) हरप्रीत सिंह, आर्टी
 (एससी-00576) रविन्दर सिंह तंवर, इंजीनियर्स
 (एससी-00577) अमर नाथ, आर्टी
 (एससी-00578) मधु ए टी, ईएमई
 (एससी-00579) जडेजा भागीरथ सिन्ध, ईएमई
 (एससी-00580) राज किशोर कनवासी, आर्टी
 (एससी-00581) सोमेन्द्र कुमार शर्मा, इन्फैन्ट्री
 (एससी-00582) सौरव चक्रवर्ती, इन्फैन्ट्री
 (एससी-00583) दुर्लव कुमार मेधी, आर्टी
 (एससी-00584) मूरक्कानाट्टिल एन्थोनी जय, इन्फैन्ट्री
 (एससी-00585) राज कुमार शर्मा, मेक

----- 13 दिसम्बर 2010

ले से कप्तान

आईसी सं., नाम तथा आर्म

- (आईसी-70778) अभिषेक गर्गमुख, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70779) अतुल कुमार राय, एसी
 (आईसी-70780) कुन्दन कुमार, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70781) अजीत सिंह नेगी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70782) उदित पन्त, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70783) भवेश रंजन, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70784) आदित्य शर्मा, आर्टी
 (आईसी-70785) जसकरन सिंह, आर्टी
 (आईसी-70786) अभिनव मारवाल, इंजीनियर्स
 (आईसी-70787) ललित मोहन पलारिया, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70788) देवरे अनूप बिपिनचन्द्र, आर्टी
 (आईसी-70789) शेटे उमेश बंदोपंत, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70790) एस पी दीपक, आर्टी
 (आईसी-70791) कुमार वैभव, एएडी
 (आईसी-70792) शान्तनू बौरी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70793) गौरव ग्रेवाल, ईएमई
 (आईसी-70794) अंकित खत्री, इन्फैन्ट्री

- (आईसी-70795) आनंद कुमार एन, आर्टी
 (आईसी-70796) जीवन सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70797) शैलेन्द्र सिंह चौधरी, आर्टी
 (आईसी-70798) विशाल नन्दा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70799) विनय राय, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70800) अभिनीत कुमार गौड़, आर्टी
 (आईसी-70801) श्रीनिवासन एस, मेक इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70802) लक्ष्य, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70803) अरूण एबे मैथ्यू, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70804) भूपेन्द्र सिंह, शौर्य चक्र, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70805) अभिनव श्रीवास्तव, एएडी
 (आईसी-70806) सुमित श्योराण, एसी
 (आईसी-70807) पंकज दहिया, इंजीनियर्स
 (आईसी-70808) बांधे राजेश श्रीराम, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70809) शौर्य राणा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70810) अलोकिक डोगरा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70811) अबुसईद जी पटेल, आर्टी
 (आईसी-70812) विकास कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70813) अमित दिलीप वारंग, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70814) दीपक भट्ट, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70815) प्रिन्स बी रमेश, इंजीनियर्स
 (आईसी-70816) दुष्यंत सिंह लाम्बा, एसी
 (आईसी-70817) आशुतोष कुमार पाण्डेय, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70818) प्रमोद पी प्रभु, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70819) वाढेकर सुधाकर रामदास, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70820) अशोक भारद्वाज, मेक इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70821) योगेन्द्रा कुमार राई, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70822) अक्षय किशोर देखणे, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70823) शरद चन्द्र सिंह, आर्टी
 (आईसी-70824) अजीत कुमार प्रधान, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70825) लरमलकर निखिल प्रकाश, एएडी
 (आईसी-70826) अखिलेश चौहान, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70827) हरप्रीत सिंह, इंजीनियर्स
 (आईसी-70828) दलवी जितेंद्र खंडु, एसी
 (आईसी-70829) रवि कान्त कुशवाहा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70830) अम्ब्रीश कुमार उपाध्याय, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70831) सचिन कुमार, एएससी
 (आईसी-70832) प्रत्यूष कुमार सिंह, ईएमई
 (आईसी-70833) भानू तेजा ए, एएडी
 (आईसी-70834) अविनाश कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70835) मार्टिन अरविन्द एस, आर्टी
 (आईसी-70836) सी ए अमित प्रसाद, एसी
 (आईसी-70837) अमित सेमवाल, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70838) दीपक मेहता, आर्टी
 (आईसी-70839) जितेन्द्र प्रजापति, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70840) संदीप धूल्ल, मेक इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70841) भूपेश सिंह चुफाल, एएडी
 (आईसी-70842) कल्याणबाबू मैमोमचा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70843) विपिन चन्द्र दंडियाल, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70844) अनिल कुमार, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70845) दलवी नकुल जयंत, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70846) अवनीश आनन्द झा, एएडी
 (आईसी-70847) संदीप भारतीय, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70848) गौरवजीत चावला, ईएमई
 (आईसी-70849) आलोक कुमार मण्डल, आर्टी
 (आईसी-70850) अनूप वी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70851) अभिषेक कुलकर्णी, इंजीनियर्स
 (आईसी-70852) शैलेन्द्र सिंह पटेल, एएससी
 (आईसी-70853) संदीप शर्मा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70854) माकन इन्द्रप्रताप सिंह निर्मल सिंह, एसी
 (आईसी-70855) आशीष अवस्थी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70856) राजीव कुमार, आर्टी
 (आईसी-70857) जगप्रीत सिंह सोढ़ी, आर्टी
 (आईसी-70858) रोहित श्योराण, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70859) प्रशान्त प्रियदर्शी, आर्टी
 (आईसी-70860) दीपक कुमार सामल, आर्टी
 (आईसी-70861) अंकित मिश्रा, आर्टी

- (आईसी-70862) रामश्याम साई अनवेश, इंफैन्ट्री
- (आईसी-70863) संदीप कुमार, आर्टी
- (आईसी-70864) डी आर संदीप, आर्टी
- (आईसी-70865) विश्वनाथ सिंह, आर्टी
- (आईसी-70866) विनीत जगदेव, इंफैन्ट्री
- (आईसी-70867) विक्की गाहल्याण, इंफैन्ट्री
- (आईसी-70868) नवप्रीत सिंह बाठ, एसी
- (आईसी-70869) अमित भारद्वाज, इंजीनियर्स
- (आईसी-70870) प्रियांक सतीश निंबालकर, इंफैन्ट्री
- (आईसी-70871) बलराज सिंह रंधावा, इंजीनियर्स
- (आईसी-70872) सतीश कुमार सिंह, एएससी
- (आईसी-70873) कुमार सौरभ, आर्टी
- (आईसी-70874) परितोष नाथ शुक्ला, आर्टी
- (आईसी-70875) एस प्रोबीर सिंहा, इंफैन्ट्री
- (आईसी-70876) प्रशान्त किशोर मिश्रा, एसी
- (आईसी-70877) रजनीश मेहता, इंफैन्ट्री
- (आईसी-70878) नन्द लाल, आर्टी
- (आईसी-70879) पवन कुमार सिंह, एएडी
- (आईसी-70880) अनूप प्रताप सिंह, आर्टी
- (आईसी-70881) गणेश नटराजन, मैक इंफैन्ट्री
- (आईसी-70882) साहिल, आर्टी
- (आईसी-70883) विजय कुमार, एएडी
- (आईसी-70884) देबदुलाल मैटी, आर्टी
- (आईसी-70885) दीपक रस्तोगी, इंफैन्ट्री
- (आईसी-70886) विकास शर्मा, इंफैन्ट्री
- (आईसी-70887) यशवंत अरविंद अभ्यंकर, आर्टी
- (आईसी-70888) नरहरि वी, आर्टी
- (आईसी-70889) प्रभात कुमार, आर्टी
- (आईसी-70890) अशोक कुमार सिंह, इंजीनियर्स
- (आईसी-70891) दीपक कुमार मुलिया, इंफैन्ट्री
- (आईसी-70892) नेटके दीपक केशव, आर्टी
- (आईसी-70893) विनीत वी, इंफैन्ट्री
- (आईसी-70894) दिनेश सिंह, इंफैन्ट्री
- (आईसी-70895) दीपक मिश्रा, आर्टी
- (आईसी-70896) कुलकर्णी आदित्य दत्तात्रेय, इंफैन्ट्री
- (आईसी-70897) निशान्त करोल, एसी
- (आईसी-70898) अजित वी नायर, आर्टी
- (आईसी-70899) अजय सिंह बेरवाल, ईएमई
- (आईसी-70900) सौरभ केसरी, इंजीनियर्स
- (आईसी-70901) मो. अली आरजु शाहनवाज़, आर्टी
- (आईसी-70902) आदित्य मल्होत्रा, एसी
- (आईसी-70903) यशवीर, इंफैन्ट्री
- (आईसी-70904) मधु मनीष, आर्टी
- (आईसी-70905) नरेन्द्र सिंह, इंफैन्ट्री
- (आईसी-70906) दिव्येन्दु शेखर दूबे, मैक इंफैन्ट्री
- (आईसी-70907) सुभाष चन्द्रन नायर बी, एएडी
- (आईसी-70908) तुषार सिंह, ईएमई
- (आईसी-70909) वैभव उपासनी, इंजीनियर्स
- (आईसी-70910) मनीष कुमार कादयान, इंफैन्ट्री
- (आईसी-70911) चन्द्र प्रकाश सिंह, इंफैन्ट्री
- (आईसी-70912) इरागवरापू वी एस रंगनाद, आर्टी
- (आईसी-70913) के पार्थिवन, आर्टी
- (आईसी-70914) वाई आशीष कुमार, इंफैन्ट्री
- (आईसी-70915) राहुल महाजन, इंफैन्ट्री
- (आईसी-70916) आर एस ओबेद, एएससी
- (आईसी-70917) संजय बिष्ट, इंफैन्ट्री
- (आईसी-70918) अंगद कुमार, आर्टी
- (आईसी-70919) इशिताब वशिष्ठ, एसी
- (आईसी-70920) नीरज बैनीवाल, इंफैन्ट्री
- (आईसी-70921) संदीप कुमार नेहरा, इंफैन्ट्री
- (आईसी-70922) नीलाभ भारद्वाज, इंफैन्ट्री
- (आईसी-70923) सौरभ सिरोही, इंफैन्ट्री
- (आईसी-70924) विवेक कुमार, आर्टी
- (आईसी-70925) राहुल चन्द्रन, आर्टी
- (आईसी-70926) विश्वनाथ, आर्टी
- (आईसी-70927) सुजीत कुमार, आर्टी
- (आईसी-70928) आशुतोष शर्मा, आर्टी

(आईसी-70929) नरेश कुमार महला, आर्टी	(आईसी-70964) सिद्धार्थ सौरभ, आर्टी
(आईसी-70930) विक्रम गौड़, इन्फैन्ट्री	(आईसी-70965) ज्योतिष कुमार मंगलम, इन्फैन्ट्री
(आईसी-70931) रोहित रत्न, इन्फैन्ट्री	(आईसी-70966) उदय सिंह परमार, इन्फैन्ट्री
(आईसी-70932) एस एस बाबू, एसी	(आईसी-70967) तापड़िया आकाश अशोक, इन्फैन्ट्री
(आईसी-70933) रमन कुमार, इन्फैन्ट्री	(आईसी-70968) पुष्पेन्द्र सिंह राजपूत, मैक इन्फैन्ट्री
(आईसी-70934) रोहन तंपी, इन्फैन्ट्री	(आईसी-70969) अनिल कुमार, आर्टी
(आईसी-70935) राजीव डेमरा, इन्फैन्ट्री	(आईसी-70970) गौरव शर्मा, आर्टी
(आईसी-70936) रूपक कुमार ठाकुर, इन्फैन्ट्री	(आईसी-70971) देशमुख विक्रान्त अजीत, इन्फैन्ट्री
(आईसी-70937) श्रीधर हीरेमट, इन्फैन्ट्री	(आईसी-70972) चन्दन कुमार, आर्टी
(आईसी-70938) सुमित सरदाना, आर्टी	(आईसी-70973) अमृतेश विक्रम, इंजीनियर्स
(आईसी-70939) जानी ए सी, आर्टी	(आईसी-70974) हर्ष वर्धन, एएडी
(आईसी-70940) रविन्द्र सिंह बिष्ट, इन्फैन्ट्री	(आईसी-70975) प्रशांत सावंत, इंजीनियर्स
(आईसी-70941) विशाल द्विवेदी, इन्फैन्ट्री	(आईसी-70976) कुमार गौरव, इन्फैन्ट्री
(आईसी-70942) सबास्टियन एम, इन्फैन्ट्री	(आईसी-70977) पुलकित देवन, ईएमई
(आईसी-70944) पुलकेश रॉय, आर्टी	(आईसी-70978) अरुण डी एस, आर्टी
(आईसी-70945) राकेश चन्द्र भट्ट, ईएमई	(आईसी-70979) हर्षा जी आर, एसी
(आईसी-70946) अनुभव थापा, इन्फैन्ट्री	(आईसी-70980) कुमार गौरव, आर्टी
(आईसी-70947) अवनीश शुक्ला, इन्फैन्ट्री	(आईसी-70981) विजय थापा, इन्फैन्ट्री
(आईसी-70948) विकास राणा, आर्टी	(आईसी-70982) मन्मथ खण्डुआल, आर्टी
(आईसी-70949) अखिल सुहाग, इन्फैन्ट्री	(आईसी-70983) राहुल राणा, इन्फैन्ट्री
(आईसी-70950) दीपक खुराना, एएडी	(आईसी-70984) रोहित कुमार बारिक, एसी
(आईसी-70951) नवीन शर्मा, एओसी	(आईसी-70985) धर्मेन्द्र सिंह, एओसी
(आईसी-70952) करण कालरा, एसी	(आईसी-70986) विरांची नारायण त्रिपाठी, एएडी
(आईसी-70953) संदीप कुमार यादव, आर्टी	(आईसी-70987) मोहित कुमार जैन, आर्टी
(आईसी-70954) राहुल सेठ, इन्फैन्ट्री	(आईसी-70988) विरेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री
(आईसी-70955) अनवर रजा काज़मी, आर्टी	(आईसी-70989) राज कुमार, इन्फैन्ट्री
(आईसी-70956) वैखोम हेमन्त सिंह, एओसी	(आईसी-70990) लिन्सन लॉरेन्स, इन्फैन्ट्री
(आईसी-70957) रविन्द्र नेगी, ईएमई	(आईसी-70991) तुषार शर्मा, आर्टी
(आईसी-70958) कृपाल पाल, सिग्नल्स	(आईसी-70992) गूटी बालाजी निरंजन, आर्टी
(आईसी-70959) मुकेश नेगी, मैक इन्फैन्ट्री	(आईसी-70993) एस श्याम शशीधर, इंजीनियर्स
(आईसी-70960) बिजेन्द्र सिंह, एएससी	(आईसी-70994) प्रियंक श्रीवास्तव, इन्फैन्ट्री
(आईसी-70961) अरोरा अभिजीत सिंह महेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री	(आईसी-70995) रायपुरे विशाल भगवान, मैक इन्फैन्ट्री
(आईसी-70962) चरणजीत सिंह, इन्फैन्ट्री	(आईसी-70996) दीपक नान्दल, इन्फैन्ट्री
(आईसी-70963) के एल राघवेंद्र, आर्टी	(आईसी-70997) सौरभ सिंह, इन्फैन्ट्री

- (आईसी-70998) अमरबीर सिंह भिन्डर, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70999) रमन भारद्वाज, आर्टी
 (आईसी-71000) रूपक कुमार, आर्टी
 (आईसी-71001) श्वेतांक सरन, एसी
 (आईसी-71002) सुदिप्तो साहा, इंजीनियर्स
 (आईसी-71003) आलफो एलदो के, एएडी
 (आईसी-71004) रमनदीप सिंह नेगी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71005) टी आर स्वामीदास, आर्टी
 (आईसी-71006) गौरव नेगी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71007) राहुल, आर्टी
 (आईसी-71008) दिलीप सिंह शेखावत, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71009) मयुरेश रमेश बारभाई, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71010) जपिन्द्र पाल सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71011) वरूण कुमार चौधरी, आर्टी
 (आईसी-71012) रणबीर सिंह, आर्टी
 (आईसी-71013) आर नवीन कुमार, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71014) अश्वनी कुमार, ईएमई
 (आईसी-71015) दीपक सिंह मन्हास, एएडी
 (आईसी-71016) मनीष कुमार पाण्डेय, आर्टी
 (आईसी-71017) अनुज कुमार, एसी
 (आईसी-71018) अविनाश कुमार, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71019) अनुपम शर्मा, एएससी
 (आईसी-71020) राणा रवीन्द्र सिंह, इंजीनियर्स
 (आईसी-71021) शिंदे धनराज दिलीप, आर्टी
 (आईसी-71022) गोथे सौरभ अनिल, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71023) एस प्रवीण कुमार, एसी
 (आईसी-71024) विक्रम शेखावत, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71025) निखिल राठौड़, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71026) नागेश प्राशर, इंजीनियर्स
 (आईसी-71027) पियूष कौशल, एएडी
 (आईसी-71028) हीमांशु यादव, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71029) हिमांशु आले, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71030) दिवेश पोसवाल, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71031) अनिल कुमार लूहाच, एएससी
 (आईसी-71032) उल्लास कुमार वी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71033) श्राजबीर, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71034) अतुल दिनेश मिधा, मैक इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71035) श्वेतेज, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71036) अभिनीत, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71037) लोकेन्द्र सिंह शेखावत, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71038) संतोष नेगी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71039) सुनील सांगवान, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71040) वरूण कुमार गुण्डवरपू, ईएमई
 (आईसी-71041) पवनीत नरूला, एएडी
 (आईसी-71042) दीपक सिंह बिष्ट, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71043) प्रशांत सनवाल, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71044) अनिमेष रावत, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71045) लोकेश चौहान, आर्टी
 (आईसी-71046) रविन्द्र सिंह मन्हास, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71047) शिशांक शर्मा, एसी
 (आईसी-71048) ध्रुव राजन, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71049) आकाश पाण्डे, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71050) राहुल कुमार राय, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71051) अमित सक्सेना, एएडी
 (आईसी-71052) शशि किशोर, आर्टी
 (आईसी-71053) सोनम कुमार जायसवाल, ईएमई
 (आईसी-71054) अनुराग उपाध्याय, आर्टी
 (आईसी-71055) प्रबीर गोगोई, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71056) राजीवलोचन प्रधान, आर्टी
 (आईसी-71057) कुलदीप शर्मा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71058) सक्षम शर्मा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71059) विकास कुमार, आर्टी
 (आईसी-71060) अरूणदीप सिंह, इंजीनियर्स
 (आईसी-71061) विजय कुमार शर्मा, आर्टी
 (आईसी-71062) गौरव बिष्ट, आर्टी
 (आईसी-71063) विष्णु दत्त त्रिवेदी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71064) शैलेन्द्र सिंह मेहता, इंजीनियर्स
 (आईसी-71065) जितेन्द्र सिंह, इंजीनियर्स
 (आईसी-71066) हर्षवर्धन दाधीच, इन्फैन्ट्री

- (आईसी-71067) रवि कुमार, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71068) तनुज नौटियाल, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71069) रोहित पोरवाल, आर्टी
 (आईसी-71070) लिबू अब्राहम, आर्टी
 (आईसी-71071) आशीष मिश्रा, आर्टी
 (आईसी-71072) कमल थवानी, एसी
 (आईसी-71073) सानप कैलाश पंढारीनाथ, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71074) राजेश जोशी, एएडी
 (आईसी-71075) साहिल खुराना, आर्टी
 (आईसी-71076) विकास कटोच, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71077) आलोक कुमार पाण्डेय, मैक इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71078) लिटुल गोगोई, एएससी
 (आईसी-71079) भूपेन्द्र सिंह उज्ज्वल, एसी
 (आईसी-71080) अंकित नेगी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71081) विपिन कुमार गौड़, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71082) प्रवीण कुमार पारेख, आर्टी
 (आईसी-71083) सुरेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71084) अश्विन शाह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71085) अनोघ कुमार चन्दा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71086) जगदीश सौमप्पा राचन्नवर, इंजीनियर्स
 (आईसी-71087) वनकुल शर्मा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71088) एस गौतम, आर्टी
 (आईसी-71089) विक्रम सिंह कादयान, ईएमई
 (आईसी-71090) शिवेश सिंह थापा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71091) सिद्धार्थ सिंह, एसी
 (आईसी-71092) अतुल यादव, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71093) क्षितीज शुक्ला, एएडी
 (आईसी-71094) अमित कुमार, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71095) विजेन्द्र सिंह शेखावत, आर्टी
 (आईसी-71096) दलजीत सिंह ढिल्लो, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71097) निशांत कुमार, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71098) उमेश चन्द्र जोशी, आर्टी
 (आईसी-71099) हरिश शर्मा, आर्टी
 (आईसी-71100) हरीश कुमार विजेन्द्रन, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71101) आशिष रंजन दूबे, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71102) श्रीकांत एल, इंजीनियर्स
 (आईसी-71103) गाड़गिल सचिन श्रीकांत, आर्टी
 (आईसी-71104) वी एम विक्रम विरराघवन, आर्टी
 (आईसी-71105) उपकार तिवारी, आर्टी
 (आईसी-71106) तरूण कुमार, मैक इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71107) राघव खण्डुरी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71108) यादविन्दर सिंह भाऊ, एसी
 (आईसी-71109) सप्तर्षि सरकार, एएडी
 (आईसी-71110) सूरज आर, आर्टी
 (आईसी-71111) डबलु मिश्रा, ईएमई
 (आईसी-71112) राधेश्याम यादव, ईएमई
 (आईसी-71113) सुरेन्द्र सिंह बिष्ट, इंजीनियर्स
 (आईसी-71114) देव अमेय गजानन, सिग्नल्स
 (आईसी-71115) मल्लिनाथ, सिग्नल्स
 (आईसी-71116) त्रिभुवन बिष्ट, ईएमई
 (आईसी-71117) गौरव पंत, इंजीनियर्स
 (आईसी-71118) शेबिन बी कुट्टी, ईएमई
 (आईसी-71119) शरत वी आर, ईएमई
 (आईसी-71120) प्रियेश श्रीवास्तव, इंजीनियर्स
 (आईसी-71121) रविन्द्र भाखर, ईएमई
 (आईसी-71122) चंदन विश्वकर्मा, इंजीनियर्स
 (आईसी-71123) मधुर मलिक, सिग्नल्स
 (आईसी-71124) संदीप कुमार, ईएमई
 (आईसी-71125) आशीष धंकड़, सिग्नल्स
 (आईसी-71126) विरेन्द्र केशारी, सिग्नल्स
 (आईसी-71127) कुलदीप सिंह, इंजीनियर्स
 (आईसी-71128) नीलकांत कुमार, सिग्नल्स
 (आईसी-71129) दक्ष दीप विश्नोई, इंजीनियर्स
 (आईसी-71130) एम सुरेन्द्र कुमार, ईएमई
 (आईसी-71131) गौरव राज, सिग्नल्स
 (आईसी-71132) अर्शदीप सिंह गिल, सिग्नल्स
 (आईसी-71133) विवेक नेगी, ईएमई
 (आईसी-71134) दीपांशु बलूनी, इंजीनियर्स

(आईसी-71135) विशाल ममगैन, सिग्नल्स
 (आईसी-71136) रिजेश जयराजन, एएडी
 (आईसी-71137) एस कोच्चेलवन, ईएमई
 (आईसी-71138) हिमांशु रावत, ईएमई
 (आईसी-71139) वरूण शर्मा, सिग्नल्स
 (आईसी-71140) आनंद बी, ईएमई
 (आईसी-71141) राहुल हरमन, सिग्नल्स
 (आईसी-71142) विराज गुलाटी, ईएमई
 (आईसी-71143) जुगल शर्मा, इंजीनियर्स
 (आईसी-71144) लक्ष्य जैन, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71145) अनिरुद्ध रमेश कुमार सुंकारा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71146) नायर साईनाथन सोमनाथन, इंजीनियर्स
 (आईसी-71147) अभिषेक रानडे, एएससी
 (आईसी-71148) श्रीराम एस वी, सिग्नल्स
 (आईसी-71149) रजत बहल, इंजीनियर्स
 (आईसी-71150) आशीष साह, ईएमई
 (आईसी-71151) गगनदीप मिश्रा, इंजीनियर्स
 (आईसी-71152) लक्ष्य शर्मा, सिग्नल्स
 (आईसी-71153) मोहित कुमार शर्मा, सिग्नल्स
 (आईसी-71154) सुयश रघुवंशी, ईएमई
 (आईसी-71155) अनुराग कुमार, ईएमई
 (आईसी-71156) रौनाल्ड डैनियल डिसुजा, इंजीनियर्स
 (आईसी-71157) नाप्रम अशोक कुमार मैटे, इंजीनियर्स
 (आईसी-71158) अंकुर गुप्ता, ईएमई
 (आईसी-71159) एम कृष्णा चैतन्या, ईएमई
 (आईसी-71160) मनीष नायर, इंजीनियर्स
 (आईसी-71161) संकल्प सोनी, सिग्नल्स
 (आईसी-71162) प्रशांत नेमा, सिग्नल्स
 (आईसी-71163) दीपक जैन, सिग्नल्स
 (आईसी-71164) पी ए अपाचा, सिग्नल्स
 (आईसी-71165) अभिनीत कुमार, सिग्नल्स
 (आईसी-71166) शोभित मेहता, सिग्नल्स
 (आईसी-71167) हिमांशु सिंह, सिग्नल्स
 (आईसी-71168) अभिषेक विश्वास, ईएमई

(आईसी-71169) सुशील कुमार, सिग्नल्स
 (आईसी-71170) सिंगम जीवन सिंह, इंजीनियर्स
 (आईसी-71171) विक्रम जीत सिंह दहिया, ईएमई
 (आईसी-71172) अंकित बुद्धराजा, सिग्नल्स
 (आईसी-71173) अरुण भास्कर के., ईएमई
 (आईसी-71174) आर वमशी कृष्णन, इंजीनियर्स
 (आईसी-71175) क्षेत्रीमयुम चंगखोम्बा, इंजीनियर्स
 (आईसी-71176) ओजोतीन कुमार, आर्टी
 (आईसी-71177) विप्लव भट्टाचार्य, ईएमई
 (आईसी-71178) दीपक सिंह, इंजीनियर्स
 (आईसी-71179) दीपांजन बन्दोपाध्याय, ईएमई
 (आईसी 71180) पाटिल गुरुराज प्रल्हाद, इंजीनियर्स
 (आईसी-71181) विवेक सुब्रमण्यन, ईएमई
 (आईसी-71182) काले विक्रान्त खांडेराव, आर्टी
 (आईसी-71183) सत्येन कुमार, ईएमई

--13 दिसम्बर 2010

राहुल शर्मा
 ले कर्नल
 एएमएस-8बी

वायु शाखा

सं. 235, दिनांक 25 अप्रैल 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित मूल पदोन्नति करते हैं :--

भारतीय वायु सेना

(उड़न शाखा)

एयर मार्शल के मूल रैंक में

एयर मार्शल आर सिंह, एवीएसएम वीएम, (13980), उड़न(पा), 01 दिसम्बर 2010

एयर मार्शल जे चौहान, एवीएसएम वीएसएम, (14079), उड़न(पा), 01 जनवरी 2011

एयर मार्शल आर के जॉली, वीएम वीएसएम, (14083), उड़न(पा), 01 जनवरी 2011

एयर मार्शल आर के शर्मा, एवीएसएम वीएम, (14088), उड़न(पा), 01 फरवरी 2011

एयर मार्शल पी के राय, एवीएसएम वीएम वीएसएम, (14100), उड़न(पा), 01 फरवरी 2011

एयर मार्शल डी सिंह, एवीएसएम वीएम, (14553), उड़न(पा), 01 फरवरी 2011

एयर कर्माडोर के मूल रैंक में

एयर कर्माडोर एस के घोडिया (16575), उड़न(पा), 01 सितम्बर 2009

(संयुक्त वरीयता सूची में इनका नाम एयर कर्माडोर एच जे वालिया (16418) एफ(एन) के नीचे एवं एयर कर्माडोर आर टी माधुर (16772) एफ(पी) के ऊपर आएगा)

एच एस अरोड़ा (16557), अ पा, 15 जून 2009/02 मार्च 2009 (केवल वरीयता के आधार पर)

(इनका नाम एयर कर्माडोर एस जे मनोदकर (16555), उड़न(पा) के नीचे आएगा)

प्रशासनिक शाखा

ग्रुप कैप्टन के मूल रैंक में

ग्रुप कैप्टन पी आनंद (18320), प्रशा., 28 जून 2010

(संयुक्त वरीयता सूची में इनका नाम ग्रुप कैप्टन ए के भटनागर (18319) प्रशा. के नीचे एवं ग्रुप कैप्टन पी के घोष (18324) प्रशा. के ऊपर आएगा)

ग्रुप कैप्टन एस आर मेनन (18608), प्रशा., 02 अगस्त 2010

ग्रुप कैप्टन डी के पाण्डे (18614), प्रशा., 10 नवम्बर 2010

ए के सिंह

उप निदेशक कार्मिक अधिकारी-2(बी)

(वित्त प्रभाग)

सं. 236, दिनांक 25 अप्रैल 2011--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग) की सचिव (रक्षा वित्त) श्रीमती नीता कपूर को उनकी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर दिनांक 31.03.2011 (अपराह) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग) में अनुभाग अधिकारी, श्रीमती चंद्रकांता की अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर उन्हें

दिनांक 31 मार्च 2011 के अपराह से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

आर सी मीना

सहायक वित्तीय सलाहकार (स्थापना)

सेना शाखा

कप्तान से मेजर

शुद्धि-पत्र

सं. 237, दिनांक 26 अप्रैल 2011--भारत के राजपत्र में दिनांक 02 अप्रैल 2005, 25 जून 2005, 15 अक्टूबर 2005 और 29 अक्टूबर 2005 को शीर्षक "नियमित सेना स्थायी कमीशन" एवं उप शीर्षक "कप्तान से मेजर" के अधीन प्रकाशित रक्षा मंत्रालय के राजपत्र में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

के स्थान पर : 10 दिसम्बर 2004

पढ़ा जाए : 11 दिसम्बर 2004

राहुल शर्मा

लेफ्टि कर्नल

एएमएस-8बी

वायु शाखा

सं. 238, दिनांक 26 अप्रैल 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित मूल पदोन्नति की तिथि में बदलाव करते हैं जोकि राजपत्र 44/561/09 को प्रकाशित हुआ है :--

भारतीय वायु सेना

(लेखा शाखा)

एयर वाईस मार्शल एस के गगनेजा (14544) लेखा के मूल रैंक की तिथि :--

के स्थान पर : 02 मार्च 2009

पढ़ा जाए : 01 मार्च 2009

ए के सिंह

उप निदेशक कार्मिक अधिकारी-2(बी)

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 4th June 2011

D(MS)/SECTION

No. 221, dated 13th April 2011—The President of India has made the following appointment on her Honorary Personal Staff with effect from 01 Mar 2011 :—

HONORARY ARMY ADC (Armd Coprs)

(IC-27606) Lt Gen AK Singh, AVSM, SM, VSM

Vice (IC-24656) Lt Gen P Khanna, PVSM, AVSM, VSM (Retd)

R SUNDER
Under Secy.

FINANCE DIVISION

No. 222, dated 13th April 2011—The President is pleased to appoint Dr Vijayalakshmy K Gupts, IDAS (1974), as Secretary (Defence Finance) in the Ministry of Defence with effect from forenoon of 01 April 2011

The President is pleased to appoint Shri Ashok Jha, CSS as Deputy Financial Adviser in the Ministry of Defence (Finance) with effect from the forenoon of 22 Feb 2011, until further orders

T H FRANKLIN
Dy Financial Adviser (Estt/MO)

No. 223, dated 14th April 2011—In terms of Sections 5 (2) and 19(1) of the Right to Information Act, 2005, and in supersession of all earlier Notifications and Amendments issued on the subject matter, the following officers of Ministry of Defence (Finance) are hereby designated as Central Public Information Officers and their Appellate Authorities in respect of the specific subject matters mentioned against their names :—

Sl No	Name of the Central Public Information Officer	Designation	Telephone No	Subject Matter	Name of Appellate Authority with Designation/ Telephone No.
1	2	3	4	5	6
1	Shri S K Jassal	AFA (MO)	23014890	Matters concerning Financial Concurrence on the proposals relating to : (i) MoD Sectt, CAO, DPR, Security Office, Reception Organisation and Historical Section (ii) Preparation of Ministry of Defence (Civil) Budget and Defence (Pension) Budget (iii) Deputation (Delegation led by Army, Air Force and Navy Chiefs)	Shri T H Franklin DFA (E/MO) Tele No. 23012180
2	Shri Sandeep Lakhanpal	SO (Exel)	23016539	All Matters relating to Defence Accounts Department	Shri Amit Cowshish FA (Acq) & AS Tele No. 23012915
3	Shri S C Jana	AFA (Budget)	23012558	(i) All matters relating to Defence Budget, (ii) Coordination of matters arising out of the GoM Report on Higher Defence Management (iii) Delegation of administrative and financial powers in MoD and Service HQrs (iv) Matters relating to DPM, DPP and IFA (Systems) (v) Coordination of Parliament Questions	Smt Richa Misra Dir (Fin/Budget) Tele No. 23012554
4	Shri Ravinder Kumar	AFA(N/A)	23011232	Matters concerning Financial Concurrence on the proposals relating to : (i) Deputation and manpower requirement of Navy (ii) Procurement matters of Navy (iii) Any other matter relating to Navy	Shri B K Mukhopadhyay Dir (Fin/Navy) Tele No. 23792076
5	Shri Anup Singh	AFA(DP)	23016392	Matters concerning Financial Concurrence on the proposals relating to : (i) Department of Defence Production (ii) Ordnance Factory Board (OFB) (iii) Defence Exhibition Organisation	Shri Chander Parkash Dir (Fin/DP) Tele No. 23012301

1	2	3	4	5	6
6	Shri S S Mahar	AFA(DS)	23015227	Matters concerning Financial Concurrence on the proposals relating to : (i) Public Sector Undertakings (PSUs) under Ministry of Defence (ii) Capital and Revenue Budget including foreign exchange for PSUs	Shri Chander Parkash Dir (Fin/PSUs) Tele No 23012301
7	Shri Ravi Katyal	AFA (O)	23014929	Matters concerning Financial Concurrence (only capital acquisition) on the proposals relating to : (i) Army Ordnance (ii) Coordination of audit paras (iii) Matters relating to Land Systems (iv) Procurement of Arms and Ammunition	Shri D K Gupta Dir (Fin/Army/Acq) Tele No. 23016076
8	Shri V K Walia	AFA(O2)	23013085	Matters concerning Financial Concurrence (only revenue nature) on the proposals relating to : (i) Clothing items, mountaineering and Army Ordnance (ii) Regularisation of Losses (iii) Modernisation of CODs (iv) Computer Inventory Control Project (CICP) (v) Provisioning of B-Vehicles	Smt Richa Misra Dir (Fin/Bud O)
9	Shri Sandeep Madan	AFA (AF/Org)	23377378	Matters concerning Financial concurrence on the proposals relating to : (i) Deputation/Delegation/Course of instruction/training etc of IAF Officers (ii) Sanction of manpower for new IAF units and approval of policy page, revision of policy page (iii) Upgradation and creation of posts in Air Force.	DFA (AF/Org) Tele No. 23012394
10	Shri A K Chaube	AFA (AF/Prov)	23010231/ 7262	Matters concerning Financial Concurrence on the proposals relating to : (i) Indents for Air Force (ii) Agreement, contracts, training equipment, supply of stores etc (iii) Air Staff Equipment Policy Committee/Sub Committee.	DFA (AF/Prov) Tele No. 23012394
11	Shri Sebastian Joseph	AFA (GS)	23014928	Matters concerning Financial Concurrence on the proposals relating to : (i) Proposals/files/papers referred by GS Branch of MoD (ii) Raising, review, reorganisation of Army Establishments (iii) UN deployment and policy matters related thereto (iv) HQ, IDS including its budget (v) Deputation proposals of Army Personnel and HQ IDS Officers (vi) All cases relating to training of Army and Training Establishments including tri-services (vii) Sports, NCC, Sainik Schools	Shri V Ramkumar DFA (GS) Tele No. 23016327

1	2	3	4	5	6
12	Shri K S Panchpal	AFA (AG)	23013198	Matters concerning Financial Concurrence on the proposals relating to : (i) Pay & Allowances and other service conditions of Army and Defence civilian Personnel (ii) Armed Forces Tribunals (AFT) (iii) Personnel Below Officers Rank (PBORs)	Shri A K Gambhir DFA (AG) Tele No 23012301
13	Shri Lajpat Rai	AFA (Q)	23011380	Matter concerning Financial Concurrence on the proposals relating to : (i) Procurement of fold stuffs (ii) Monitoring of Budget and administrative matters of CSD, DGDE, etc	Shri S C Sagar Dir (Fin/Q-MS) Tele No 23014003
14	Smt P L Sehgal	AFA (O1A)	23093534	Matters concerning Financial Concurrence on the proposals relating to : (i) Procurement of Medical stores/wet stores and related issues (ii) Vetting of review of forms and indents for drugs (iii) PV rate lists, retention, adoption, review of PE/WE	Shri S C Sagar Dir (Fin/Q-MS) Tele No 23014003
15	Shri P L Jalwa	AFA (R&D)	23007535	Matters concerning Financial Concurrence on the proposals relating to : - Department of Defence R&D	Dr S C Pandey Addl FA (P) & JS Tele No. 23013557
16	Shri K C Meena	AFA (W)	23011953	Matters concerning Financial Concurrence on the proposals relating to : (i) Defence Works under Annual Major Works Programme (ii) Administrative/procurement matters of E-in-C's Branch and Defence land matters (iii) Policy relating to entitlement, allotment and retention of Defence Pool accommodation (iv) Hiring of buildings for Defence purposes	Shri P K Singh Dir (Fin/W&BR) Tele No 23012057
17	Shri Vikrant Sachdeva	AFA (BR)	23017715	Matters concerning Financial Concurrence on the proposals relating to : (i) Border Roads Organisation (ii) Scrutiny of procurement proposals, works, regularisation of losses (iii) Preparation and approval of Budget (iv) Annual Works Plan in respect of Border Road Organisation	Shri P K Singh Dir (Fin/W&BR) Tele No 23012057
18	Shri S S Mahar	AFA (DS)	23015227	Matters concerning Financial Concurrence on the proposals relating to : (i) Defence Supplies, DGQA, Dte of Standardisation (ii) IFA to DAD, and (iii) IFA to MoD (Fin)	Shri Charanjit Lal Dir Fin (DS) Tele No 23015171
19	Shri I D Prasad	AFA (Pen)	23792590	Matters concerning Financial Concurrence on the proposals relating to : Different types of pensions relating to Armed Forces and related policy issues	Shri K K Kohli DFA (Pension) Tele No 23018756

1	2	3	4	5	6
20	Shri Suman Bara	SO (CG)	23011115	Matters concerning Financial Concurrence on the proposals relating to : (i) Coast Guard Organisation (ii) Deputation and man power requirement of Coast Guard Organisation (iii) Procurement matters of Coast Guard Organisation	Shri V B Saxena DFA (CG) Tele No 23010853
21	Shri Sanjay Arora	AFA (N/D)	23018178	Matters concerning Financial Concurrence on the proposals relating to : (i) Maritime and system, Navy Acquisition (ii) Scrutiny of works projects relating to Navy	Shri Ved Parkash Dir (Fin/Navy/Acq) Tele No 23013471
22	Shri SPS Teotia	AFA (AF/ Budget)	23010231/ 7385	Matters concerning Financial Concurrence on the proposals relating to : (i) Air Force Acquisition (ii) Scrutiny of proposals relating to warfare and guided weapons (iii) Proposals regarding re-fuelling facilities (iv) Scales of ration and clothing items (v) Preparation and submission of Budget Estimates and financial estimates and foreign exchange estimates	Shri James Mathew Dir (AF/Acq) Tele No 23014708
23	Shri Babu Lal	DD (OL)	23013395	(i) 'Hindi Salahakar Samiti' of Ministry of Defence (Finance) (ii) Implementation of Official Languages Policy (iii) Preparation of materials for the Committee of Parliament on Official Language (iv) Translation work (v) Monitoring of progress of implementation of the Official Language Act	Shri T H Franklin DFA (E/MO) Tele No 23012180
24	Shri R C Meena	AFA (E)	23792205	(i) All Establishment matters in MoD (Finance) (ii) Residual matters concerning MoD (Finance) not covered at Sr No. 1 to 23 above	Shri T H Franklin DFA (E/MO) Tele No 23012180

Note : In case any officer mentioned in the notification has relinquished charge or is on training or on long leave his link officer or the officer who has been entrusted with the charge will act as Central Public Information Officer/Appellate Authority till the regular incumbent takes charge

T H FRANKLIN
Dy Financial Adviser (E/MO)

ARMY BRANCH

No. 224, dated 14th April 2011—The President is pleased to make the following appointments :—

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION

To be Lts wef 10 Dec 2005

Ajit Singh (IC-67657K), Inf seniority next below Narendra Singh (IC-67656F) Inf whose name appeared in the Gazette of India, Ministry of Defence Notification published on 30 Dec 2006

PK SHASTRI
Major
AMS-8B

No. 225, dated 15th April 2011—The President is pleased to make the following appointments under the provision of SAI 3/S/70 as amended :—

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION

(a) The undermentioned Short Service Commissioned Officers have been granted Permanent Commission in the rank of Maj wef 03 Mar 2011, on relinquishing their SSC wef 03 Mar 2011 :—

IC No., SS No., Name & Arms/Services

(IC-65146F) (SS-38891X), Rabinder Singh Jamwal, Sigs

(IC-65147K) (SS-38904K), Dinesh Kumar Gupta, Sigs

(b) The date of seniority in respect of above mentioned officers will be as follows :—

- (i) The Date for increment's of pay —07 Mar 1999
- (ii) The date for promotion —07 May 2000
(After depressing 12 Months seniority with respect to the date of seniority assigned to the officer of his batch who was granted permanent commission on completion of 5 years of service).

(c) The inter-se-seniority vis-a-vis to the above mentioned Short Service Commissioned Officer granted Permanent Commission in 10th years alongwith the officer of their batch granted PC in the 8th year, will however remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of Short Service Commission of SSC-14(T) Course.

The President is pleased to make the following appointments under the provisions of SAI 7/S/66 as amended :—

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION

(a) The undermentioned Short Service Commissioned Officer has been granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 18 Mar 2011, on relinquishing his Short Service Commission wef 18 Mar 2011 :—

IC No., SS No., Name & Arms/Services
(IC-72799L) (SS-41798F), Navratna Jaiman, Sigs

(b) The date of seniority in respect of above mentioned officer will be as follows :—

- (i) The Date for increments of pay —21 Mar 2004
- (ii) The date for promotion —21 Apr 2004

(c) The inter-se-seniority of the above mentioned Short Service Commissioned Officer granted Permanent Commission after 5 years of service will remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of Short Service Commission.

V S RANADE
Col
MS-7

ARMY BRANCH

No. 226, dated 15th April 2011—The President is pleased to make the following appointments :—

REGULAR ARMY
SHORT SERVICE COMMISSION

To be Lt

The undermentioned 01 Officer of SSC(NT)-88 Course have completed their Short Service Commission on probation

for six months commencing from 19 Sep 2009. They are granted Short Service Commission in the rank of Lieutenant for a period of 10 years wef 19 Sep 2009 under the provisions of SAI 3/S/98, as amended, read in conjunction with GoI Letter No. B/32313/PC/AG/PS-2(a) 921/D(AG) dt 20 Jul 2006 :—

Name, SS No. & Arm/Service

Dipjyoti Deka (SS-43673H), Inf

The undermentioned 01 Officer of SSC(NT)-88 Course have completed their Short Service Commission on probation for six months commencing from 19 Sep 2009. They are granted Short Service Commission in the rank of Lieutenant for a period of 10 years wef 19 Sep 2009 under the provisions of SAI 3/S/98, as amended, read in conjunction with GoI Letter No. B/32313/PC/AG/PS-2(a) 921/D(AG) dt 20 Jul 2006 :—

Name, SS No. & Arm/Service

Gyan Sagar (SS-43734P), ASC

PK SHASTRI
Maj
AMS-8B

ARMY HEADQUARTERS
E-IN-C'S BRANCH

No. 227, dated 18th April 2011—The competent authority appoints Smt Praveen Trehan of AFHQ Stenographers Cadre as temporary Private Secretary (Group B, Gazetted) under the Rule 7(3) of AFHQ Stenographers' Service Rules, 2004 for the period from 01.01.2011 to 30.06.2011 or till such time the individual retires or till regular incumbents become available, whichever is earlier.

This appointment is made purely as stop gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

AK LAROIYA
Dy. Chief Administrative Officer (A)

NAVY BRANCH

No. 228, dated 18th April 2011—The President is pleased to make the following appointment in the Executive Branch (Logistics Cadre) of the Indian Navy for Direct Entry Scheme under the Ministry of Defence Letter No. MF/1506/DES/Vol-I/03 dated 21 Jan 2008 from the date shown against the name :—

To be Sub Lt (on probation)

Name of the Officers, P. No., Type of Commission & Date of Commission

EXECUTIVE BRANCH (LOGISTICS CADRE)—AUG 2005

Preeti Poddar (05773W), SSC, 07 Jul 2005

The President is pleased to make the following appointment in the Executive Branch (Logistics Cadre) of

the Indian Navy for Direct Entry Scheme under the Ministry of Defence Letter No. MF/1506/DES/Vol-I/03 dated 21 Jan 2008 from the date shown against the name :—

To be Sub Lt (on probation)

Name of the Officers, P. No., Type of Commission & Date of Commission

EXECUTIVE BRANCH (LOGISTICS CADRE)—AUG 2005

Ratnaprabha Vijay Karle (05774Y), SSC, 15 Jul 2005

R RAJAGOPALAN
Comdr
JDMPR (OI & R)

FINANCE DIVISION

No. 229, dated 19th April 2011—The President is pleased to extend the Central Deputation tenure of Shri Pankaj Kumar Singh, IDAS (1994) as Director (Fin.) for One Month beyond 19.03.2011 in Ministry of Defence (Finance).

The President is pleased to extend the tenure of Shri Vishvajit Sahay, IDAS (1990) as Finance Manager for Two Year with effect from 11.06.2011 to 10.06.2013 in Ministry of Defence (Finance).

TH FRANKLIN
Dy. Financial Adviser (Estt./MO)

No. 230, dated 19th April 2011—The President is pleased to confirm the undermentioned officers granted Short Service Commission (on probation), wef the date stated against their names :—

INDIAN AIR FORCE

AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS) BRANCH

Fg Offr (Ms) Shuchi Gautam (30354) AE(L), wef 20 Dec 2008

The President is pleased to confirm the undermentioned officer granted Permanent Commission wef the date stated against the names :—

INDIAN AIR FORCE

FLYING (PILOT) BRANCH

Fg Offr Abhishek (30182), wef 20 Dec 2008

TARUN KHARE
Wg Cdr
JDPO-3(D)

ARMY BRANCH

No. 231, dated 20th April 2011—The President is pleased to make substantive promotions of Major General to the following officers :—

REGULAR ARMY PERMANENT COMMISSION

To be Subs Maj Gen

(IC-34646) Brig Anirudh Banerjee, EME, 21 Sep 2009 with seniority from 01 Jan 2008 without effect on pay and pension

(IC-31348) Brig Rajan Bakshi, 17 Horse, 07 Nov 2009 with seniority from 01 Jan 2008 without effect on pay and pension

(IC-31351) Brig RN Singh SM, VSM, Assam, 07 Nov 2009 with seniority from 01 Jan 2008 without effect on pay and pension

(IC-35040) Brig RM Mittal SM, Engr, 23 Apr 2010 with seniority from 01 Jan 2008 without effect on pay and pension

(IC-31559) Brig Sandeep Kumar VSM, AEC, 01 Apr 2009 with seniority from 02 Jan 2008 without effect on pay and pension

(IC-36527) Brig RC Chadha, 66 AR, 07 Nov 2009 with seniority from 02 Jan 2008 without effect on pay and pension

(IC-31633) Brig AK Sahni, SM, VSM, Arty(GC), 07 Nov 2009 with seniority from 02 Jan 2008 without effect on pay and pension

(IC-31635) Brig Y Sangra, VSM, Arty, 01 Oct 2009 with seniority from 02 Jan 2008 without effect on pay and pension

(IC-31638) Brig Om Parkash, SM, Kumaon, 07 Nov 2009 with seniority from 03 Jan 2008 without effect on pay and pension

(IC-31640) Brig RK Rana, SM, VSM, Raj Rif, 07 Nov 2009 with seniority from 03 Jan 2008 without effect on pay and pension

(IC-31642) Brig NP Padhi, Engr, 27 Apr 2010 with seniority from 03 Jan 2008 without effect on pay and pension

(IC-31650) Brig Arjun Menon, 70 AR, 08 Jan 2010 with seniority from 03 Jan 2008 without effect on pay and pension

(IC-31653) Brig AK Bhalla, 89 AR, 07 Nov 2009 with seniority from 04 Jan 2008 without effect on pay and pension

(IC-31658) Brig UM Rajavelu, SM, Raj Rif, 08 Jan 2010 with seniority from 04 Jan 2008 without effect on pay and pension

(IC-31660) Brig AK Sen, 11 GR, 23 Apr 2010 with seniority from 04 Jan 2008 without effect on pay and pension

(IC-31672) Brig VS Dadhwal, SM, VSM, Garh Rif, 08 Jan 2010 with seniority from 04 Jan 2008 without effect on pay and pension

(IC-31684) Brig MS Pillai, SM, Engr, 27 Apr 2010 with seniority from 05 Jan 2008 without effect on pay and pension

(IC-31705) Brig Sandeep Singh, SM, VSM, Jak Rif, 14 Dec 2009 with seniority from 05 Jan 2008 without effect on pay and pension

(IC-31712) Brig PS Ravindranath, SM, 1 GR, 26 Apr 2010 with seniority from 05 Jan 2008 without effect on pay and pension

(IC-31719) Brig VM Kalia, SM, Arty (GC), 26 Apr 2010 with seniority from 05 Jan 2008 without effect on pay and pension

(IC-31736) Brig R Bhalla, SM, VSM, Jat, 19 Jan 2010 with seniority from 06 Jan 2008 without effect on pay and pension

(IC-31739) Brig CA Krishnan, 4 GR, 11 Jan 2010 with seniority from 06 Jan 2008 without effect on pay and pension

(IC-31758) Brig AV Balakrishnan, AOC, 19 Jan 2010 with seniority from 06 Jan 2008 without effect on pay and pension

(IC-31793) Brig AS Rawat, AOC, 01 Feb 2010 with seniority from 06 Jan 2008 without effect on pay and pension

(IC-31797) Brig KS Kumbar, VSM, Madras, 13 Feb 2010 with seniority from 07 Jan 2008 without effect on pay and pension

(IC-36659) Brig Anil Sharma, Arty, 16 Feb 2010 with seniority from 07 Jan 2008 without effect on pay and pension

(IC-34003) Brig MMS Rai, VSM, Engrs (GC), 01 Apr 2010 with seniority from 07 Jan 2008 without effect on pay and pension

(IC-34005) Brig KJS Thind, VSM, 20 L, 01 Apr 2010 with seniority from 07 Jan 2008 without effect on pay and pension

(IC-34019) Brig DS Hooda, VSM**, 4 GR, 01 Apr 2010 with seniority from 08 Jan 2008 without effect on pay and pension

(IC-34036) Brig PR Kumar, Arty (GC), 01 Apr 2010 with seniority from 08 Jan 2008 without effect on pay and pension

(IC-34078) Brig RP Saxena, EME, 01 Apr 2010 with seniority from 08 Jan 2008 without effect on pay and pension

(IC-34086) Brig BK Sharma, SM, Sikh LI, 21 Apr 2010 with seniority from 08 Jan 2008 without effect on pay and pension

(IC-34097) Brig KJ Singh, VSM, Mech Inf, 22 Apr 2010 with seniority from 09 Jan 2008 without effect on pay and pension

(IC-34098) Brig HJS Sachdev, SM, 1 GR, 01 May 2010 with seniority from 09 Jan 2008 without effect on pay and pension

(IC-34148) Brig Rai RP, ASC, 01 May 2010 with seniority from 09 Jan 2008 without effect on pay and pension

(IC-34164) Brig KD Singh, Madras, 01 May 2010 with seniority from 09 Jan 2008 without effect on pay and pension

(IC-34182) Brig Virendra Kumar, Madras, 21 May 2010 with seniority from 10 Jan 2010 without effect on pay and pension

(IC-34229) Brig KS Venugopal, VSM, Jat, 22 May 2010 with seniority from 10 Jan 2010 without effect on pay and pension

(IC-35800) Brig PC Jagia, VSM, EME, 01 Jun 2010 with seniority from 10 Jan 2010 without effect on pay and pension

RB ASTHANA
Dir/MS(X)

ARMY BRANCH

No. 232, dated 20th April 2011—The President is pleased to make the promotion of undermentioned AMC officers with effect from the date as indicated against their names :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Surg Cdr to Surg Capt (Time Scale)

Surg Cdr MS Sahi (MR-05317Y) (75362A), 03 Dec 2010

YASH PANDE
Brig
Dy DGAFMS (HR)

ARMY BRANCH

No. 233, dated 21st April 2011—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Lt Col to be Subs Col (By Selection)

B S Rathore (SL-1810), SL(QM), Subs dt 29 Oct 1993 but seniority wef 01 Feb 1993 without effect on Pay and Pension.

Name, Pers No., Arm & Subs Date

Anil Kumar (V-00398), RVC, 01 May 2009

Rajan Thapar (V-00416), RVC, 01 May 2009

KK Sharma (V-00417), RVC, 01 May 2009

PP Rana (V-00419), RVC, 01 May 2009

RV Dhumal (V-00402), RVC, 01 May 2009

PB Deshmukh (V-00407), RVC, 01 May 2009

CS Ojha (V-00408), RVC, 01 May 2009

CSM Desai (V-00409), RVC, 01 May 2009

PK Prusty (V-00411), RVC, 01 May 2009

Lt Col to be Subs Col (By Time Scale)

IC No., Rank, Name, Arm & Date of Subs Rank

(IC-40163W) Lt Col AK Shinde, AAD, 19 Dec 2007

(IC-42342P) Lt Col Dalbir Singh, Mech Inf, 15 Dec 2010

(IC-42354K) Lt Col BK Pandey, Arty, 15 Dec 2010

- (IC-42358A) Lt Col RK Sharma, EME, 15 Dec 2010
 (IC-42375A) Lt Col SS Ralhan, ASC, 15 Dec 2010
 (IC-42388X) Lt Col G Vinod, Inf, 15 Dec 2010
 (IC-42432W) Lt Col PK Sharma, Sigs, 15 Dec 2010
 (IC-42440P) Lt Col RS Chauhan, Inf, 15 Dec 2010
 (IC-42467M) Lt Col P Sehgal, AC, 15 Dec 2010
 (IC-42484M) Lt Col Rakesh Kakar, Sigs, 15 Dec 2010
 (IC-42505X) Lt Col RK Sinha, AAD, 15 Dec 2010
 (IC-42534M) Lt Col JS Ahlawat, Int Corps, 15 Dec 2010
 (IC-42536X) Lt Col Brijdeep Singh, AC, 15 Dec 2010
 (IC-42551M) Lt Col PV Rajkar, Inf, 15 Dec 2010
 (IC-42581K) Lt Col Neelamber Jha, Engrs, 15 Dec 2010
 (IC-42593Y) Lt Col ML Sharma, Arty, 15 Dec 2010
 (IC-42619H) Lt Col Gautam Banerjee, Arty, 15 Dec 2010
 (IC-42620X) Lt Col DS Katoch, Inf, 15 Dec 2010
 (IC-42627F) Lt Col Satyendra Singh, Arty, 15 Dec 2010
 (IC-42639W) Lt Col R Rajendran, Inf, 15 Dec 2010
 (IC-42643Y) Lt Col K Bishnoi, Inf, 15 Dec 2010
 (IC-42651X) Lt Col T R Narayanan, Sigs, 15 Dec 2010
 (IC-42654L) Lt Col Omveer Singh, Inf, 15 Dec 2010
 (IC-42655N) Lt Col BR Kushwaha, Inf, 15 Dec 2010
 (IC-44427K) Lt Col SJ Gaikwad, EME, 20 Dec 2010
 (IC-44431M) Lt Col Sanjay Bhatia, Engrs, 20 Dec 2010
 (IC-44454N) Lt Col Kuldeep Singh, Engrs, 20 Dec 2010
 (IC-44459M) Lt Col Karunesh Kumar, Engrs, 20 Dec 2010
 (IC-44467L) Lt Col HS Grewal, Sigs, 20 Dec 2010
 (IC-45332W) Lt Col Ranbir Singh, AC, 09 Nov 2010
 (IC-41708P) Lt Col KVM Rao, Inf, 17 Dec 2009
 (IC-42152H) Lt Col SC Rai, EME, 09 Jun 2010
 (IC-42445N) Lt Col PK Sharma, ASC, 15 Dec 2010
 (IC-42514Y) Lt Col Virender Kumar, Inf, 15 Dec 2010
 (IC-42532F) Lt Col VS Prabhakar, Engrs, 15 Dec 2010
 (IC-42554A) Lt Col MS Hazra, Inf, 15 Dec 2010
 (IC-42672N) Lt Col PA Iyer, Mech Inf, 15 Dec 2010
 (IC-45018H) Lt Col JK Pun, Inf, 26 Apr 2009
 (IC-45106Y) Lt Col S Ghosh, Arty, 26 Apr 2009
 (IC-45337P) Lt Col ASR Naidu, AC, 09 Nov 2010
 (IC-40893F) Lt Col Ganesh Prasad, Arty, 24 Dec 2008
 (IC-42326X) Lt Col Avtar Singh, Inf, 15 Dec 2010
 (IC-42335Y) Lt Col AK Yadav, AOC, 15 Dec 2010
 (IC-42338M) Lt Col PK Singh, Inf, 15 Dec 2010
 (IC-42359H) Lt Col RK Sheoran, Arty, 15 Dec 2010
 (IC-42371K) Lt Col NP V Raghavan, Arty, 15 Dec 2010
 (IC-42403F) Lt Col Manoj Kumar Raut, Arty, 15 Dec 2010
 (IC-42410X) Lt Col Misar Gundagi, AOC, 15 Dec 2010
 (IC-42423P) Lt Col RK Suyal, Int Corps, 15 Dec 2010
 (IC-42434F) Lt Col DS Bainsla, AOC, 15 Dec 2010
 (IC-42436M) Lt Col Anil Kumar Sah, Arty, 15 Dec 2010
 (IC-42454P) Lt Col SK Bhattacharya, Arty, 15 Dec 2010
 (IC-42457H) Lt Col KC Balachandran, Arty, 15 Dec 2010
 (IC-42461L) Lt Col Lalit B Gairola, AC, 15 Dec 2010
 (IC-42462N) Lt Col RK Gautam, Inf, 15 Dec 2010
 (IC-42466K) Lt Col RV Singh, Arty, 15 Dec 2010
 (IC-42473A) Lt Col Rudra Singh, Inf, 15 Dec 2010
 (IC-42477W) Lt Col R Kurian, AAD, 15 Dec 2010
 (IC-42478Y) Lt Col Alok Vaid, ASC, 15 Dec 2010
 (IC-42479F) Lt Col PS Verma, Inf, 15 Dec 2010
 (IC-42486X) Lt Col Bhag Singh, Inf, 15 Dec 2010
 (IC-42494W) Lt Col Pawan Kumar, AOC, 15 Dec 2010
 (IC-42502K) Lt Col RPM Panghaal, Inf, 15 Dec 2010
 (IC-42510H) Lt Col Gunasekar Reddy, AC, 15 Dec 2010
 (IC-42522X) Lt Col MK Basak, Sigs, 15 Dec 2010
 (IC-42523A) Lt Col H Chaturvedi, AAD, 15 Dec 2010
 (IC-42524H) Lt Col SS Jamwal, Inf, 15 Dec 2010
 (IC-42525L) Lt Col R Thapar, Guards, 15 Dec 2010
 (IC-42527W) Lt Col AWR Muley, ASC, 15 Dec 2010
 (IC-42537A) Lt Col KS Fartiyal, Inf, 15 Dec 2010
 (IC-42539L) Lt Col Mohan Singh, Mech Inf, 15 Dec 2010
 (IC-42547K) Lt Col Diljit Singh, Arty, 15 Dec 2010
 (IC-42558W) Lt Col Badri Datt, ASC, 15 Dec 2010
 (IC-42562Y) Lt Col MS Chauhan, AOC, 15 Dec 2010
 (IC-42563F) Lt Col Nand Lal Singh, ASC, 15 Dec 2010
 (IC-42566P) Lt Col B Chakraborty, AC, 15 Dec 2010
 (IC-42570X) Lt Col Pritam Chand, Inf, 15 Dec 2010
 (IC-42571A) Lt Col SS Pathania, AC, 15 Dec 2010
 (IC-42582M) Lt Col KP Haran, Sigs, 15 Dec 2010
 (IC-42583P) Lt Col Karminder Singh, Guards, 15 Dec 2010
 (IC-42594F) Lt Col K Kumar, Sigs, 15 Dec 2010
 (IC-42597P) Lt Col GS Sidhu, Inf, 15 Dec 2010

(IC-42600K) Lt Col Amrik Singh, AOC, 15 Dec 2010
 (IC-42612Y) Lt Col Rajeev Sharma, AAD, 15 Dec 2010
 (IC-42613F) Lt Col VS Jamwal, Inf, 15 Dec 2010
 (IC-42616P) Lt Col VK Singh, AC, 15 Dec 2010
 (IC-42621A) Lt Col Rajesh Dhar, EME, 15 Dec 2010
 (IC-42624N) Lt Col Suresh Singh, Sigs, 15 Dec 2010
 (IC-42625W) Lt Col AN Jati, Inf, 15 Dec 2010
 (IC-42626Y) Lt Col MA Mathai, Int Corps, 15 Dec 2010
 (IC-42631K) Lt Col RB Mane, ASC, 15 Dec 2010
 (IC-42641N) Lt Col A Sharma, Inf, 15 Dec 2010
 (IC-42648X) Lt Col Stany Royson, Inf, 15 Dec 2010
 (IC-42649A) Lt Col PK Kar, Mech Inf, 15 Dec 2010
 (IC-42653H) Lt Col Sebastian KJ, Inf, 15 Dec 2010
 (IC-42656W) Lt Col RK Shrivastava, Arty, 15 Dec 2010
 (IC-42659K) Lt Col AR Sharma, Arty, 15 Dec 2010
 (IC-42663M) Lt Col N Ghosh, Inf, 15 Dec 2010
 (IC-42664P) Lt Col S Misra, Arty, 15 Dec 2010
 (IC-42671L) Lt Col AP Singh, Arty, 15 Dec 2010
 (IC-42722N) Lt Col OP Malik, AEC, 15 Dec 2010
 (IC-44023F) Lt Col Tarun Sharma, Engrs, 14 Jun 2010
 (IC-44435H) Lt Col R Harsoor, Engrs, 20 Dec 2010
 (IC-44461K) Lt Col AK Panday, EME, 20 Dec 2010
 (IC-44464X) Lt Col CP Venkatesalu, EME, 20 Dec 2010
 (IC-44469W) Lt Col RS Samar, Sigs, 20 Dec 2010
 (IC-45317F) Lt Col RK Nigam, AC, 09 Nov 2010
 (IC-45318K) Lt Col AS Narayan, Arty, 09 Nov 2010
 (IC-00393F) Lt Col PV Joshi, RVC, 26 Nov 2010
 (IC-00413K) Lt Col BS Lakra, RVC, 26 Nov 2010
 (IC-00414M) Lt Col Ajit Handa, RVC, 26 Nov 2010
 (IC-38420K) Lt Col Anil Joshi, AC, 22 Dec 2005
 (IC-38969X) Lt Col VK Pant, ASC, 07 Jun 2006
 (IC-40642X) Lt Col Alok Mathur, EME, 12 Jun 2008
 (IC-41745H) Lt Col Devendra Singh, EME, 17 Dec 2009
 (IC-42041LI) Lt Col G Rajakanthan, Inf, 09 Jun 2010
 (IC-42182A) Lt Col Ajai Tomar, Inf, 09 Jun 2010
 (IC-42316N) Lt Col A Saini, Inf, 15 Dec 2010
 (IC-42334W) Lt Col Rakesh Goel, Inf, 15 Dec 2010
 (IC-42381N) Lt Col AK Bandopadhyay, Inf, 15 Dec 2010
 (IC-42393H) Lt Col SK Rai, Inf, 15 Dec 2010

(IC-42419M) Lt Col Ratan Lal Midha, ASC, 15 Dec 2010
 (IC-42460H) Lt Col KS Sangwan, ASC, 15 Dec 2010
 (IC-42499P) Lt Col Rakesh Chadha, ASC, 15 Dec 2010
 (IC-42500Y) Lt Col AN Mutalik, Inf, 15 Dec 2010
 (IC-42528Y) Lt Col Rajesh Sharma, Inf, 15 Dec 2010
 (IC-42530W) Lt Col MK Sharma, Engrs, 15 Dec 2010
 (IC-42553X) Lt Col MS Patil, Inf, 15 Dec 2010
 (IC-42567X) Lt Col Raj Kumar Arora, AOC, 15 Dec 2010
 (IC-42602P) Lt Col V Shukla, Arty, 15 Dec 2010
 (IC-42605H) Lt Col RD Talukdar, Inf, 15 Dec 2010
 (IC-42634X) Lt Col Rajiv Kumar Sharma, AOC, 15 Dec 2010
 (IC-42657Y) Lt Col S Ranjan, Inf, 15 Dec 2010
 (IC-42669N) Lt Col P Panda, Inf, 15 Dec 2010
 (IC-44460F) Lt Col Shashi Bhushan, Engrs, 20 Dec 2010
 (IC-38829M) Lt Col S Singh, SLQM, 15 Dec 2010

T. K. DAS
 Dy Dir
 MS 8A

No. 234, dated 21st April 2011—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Maj to be Lt Col

(IC No.) Name, Arms
 (IC-57357) Vivek Goyal, Engrs
 (IC-57409) Himanshu, Arty
 (IC-57427) Vineet Agrawal, Engrs
 (IC-57447) Nirmal Kumar, ASC
 (IC-57456) Sureksh Vir, Sigs
 (IC-57486) Deepak Mann, Arty
 (IC-57509) Ashish Mathur, Sigs
 (IC-57515) Satnam Singh, Sigs
 (IC-57517) Prakash Krishnan, Engrs
 (IC-57542) Santosh Kumar Singh, Engrs
 (IC-57545) Agnel V Paikkatt, Sigs
 (IC-57559) Gawde Vinod Krishna, Arty
 (IC-57561) Vishal Jaitly, Engrs
 (IC-57596) Manoj Kumar Gupta, Sigs
 (IC-57645) Sandeep Bist, Engrs

(IC-57654) Swatantra Deep, AC

(SL-05113) Devashish Singh, QM

(IC-57667) Shri Prakash Shukla, Arty

—13 Dec 2010

(IC-57687) Prabhat Pande, Arty

SPECIAL COMMISSION

(IC-57698) Abhishek Srivastava, Sigs

Capt to be Maj

—06 Dec 2010

(SC No.) Name, Arm

(IC-59553) Satish Kumar Tyagi, Engrs

(SC-00468) Sunil Dutt Yadav, AOC

(IC-59565) Shyam, Engrs

(SC-00469) Rajinder Saini, Arty

—11 Dec 2010

(SC-00470) Rajendra Singh Rawat, EME

PERMANENT COMMISSION (SL)

(SC-00471) Dinesh Kumar Jaiswal, Sigs

Maj to be Lt Col

(SC-00472) Sreekumaran Pillai B, AD

(SL No.) Name, Arms

(SC-00473) Randhir Satish Kumar, Mech

(SL-05060) Rajbir Singh, TEO

(SC-00474) Rajeshwar Jaswal, Sigs

(SL-05061) Gulab Singh, TEO

(SC-00475) Bhupindra Singh, Engrs

(SL-05063) Satheesh Kumar S, TEO

(SC-00476) Dev Prasad SM, AC

(SL-05064) Sawant Anant Damodar, AO

(SC-00477) Anil Kumar P, Arty

(SL-05066) Brham Singh, QM

(SC-00478) Parma Nand Sharma, Engrs

(SL-05067) Vasantha Kumaran BK, CIPHER

(SC-00479) L Desingh, Arty

(SL-05068) Radhey Shyam Singh Yadav, TEO

(SC-00480) Ramesh Kumar, Arty

(SL-05069) Vijay Pal Singh, RO

(SC-00481) Vanamala Krishana, EME

(SL-05070) Jaswinder Pal, QM

(SC-00482) Madhusoodanan K, ASC

(SL-05071) Sushil Kumar Pandey, EMAE (AE)

—10 Dec 2010

(SL-05073) Radhey Shyam Pandey, TEO

PERMANENT COMMISSION (SC)

(SL-05074) Satyavir Singh Dangi, QM

Lt to be Capt

(SL-05075) Lodse Baba Saheb Bhaguji, CIPHER

(SC No.) Name, Arm

(SL-05076) Sudhakaran Nair, KP, EMAE (AE)

(SC-00564) Rajesh Kumar Singh Chauhan, Inf

(SL-05077) Bachan Singh, EMAE (AE)

(SC-00565) Ashwani Kumar, Inf

(SL-05078) Pratap Singh, CIPHER

(SC-00566) Koppula Satyanarayana, AD

(SL-05080) Birender Kumar Tapwal, QM

(SC-00567) Pradeep M, Engrs

(SL-05084) Lita Bando, TEO

(SC-00568) Roop Singh Negi, Inf

(SL-05088) Suresh Kumar, QM

(SC-00569) Rajiv Ranjan, EME

(SL-05089) Pawar Sahebrao Raghunathrao, CIPHER

(SC-00570) Sreejesh S, Arty

(SL-05091) Sukhdev Singh, CIPHER

(SC-00571) Vinod Kadian, AC

(SL-05092) Krishna Kumar Jha, CIPHER

(SC-00572) Ashram Prasad Sharma, Sigs

(SL-05093) U Venkateswarlu, CIPHER

(SC-00573) Anand G Panicker, Engrs

(SL-05095) Pratap Singh Bisht, CIPHER

(SC-00574) Mohan Chandra, Inf

(SL-05100) Nitesh Chandra Ghosh, CIPHER

(SC-00575) Harpreet Singh, Arty

(SL-05101) Ramdev Singh Sengar, TEO

(SC-00576) Ravinder Singh Tanwar, Engrs

(SL-05108) Yohannan Daniel, EMAE (AE)

(SC-00577) Amar Nath, Arty

(SL-05110) Samsher Singh, CIPHER

(SC-00578) Madhu A T, EME

(SL-05112) Danna Ram, QM

(SC-00579) Jadeja Bhagirath Sinh, EME
 (SC-00580) Raj Kishore Kanwasi, Arty
 (SC-00581) Somendra Kumar Sharma, Inf
 (SC-00582) Sourav Chakraborty, Inf
 (SC-00583) Durlov Kumar Medhi, Arty
 (SC-00584) Moorkkanattil Anthony Joy, Inf
 (SC-00585) Raj Kumar Sharma, Mech

—13 Dec 2010

REGULAR ARMY
 PERMANENT COMMISSION

Lt to be Capt

(IC No.) Name, Arm/Service

(IC-70778) Abhishek Gargmukh, Inf
 (IC-70779) Atul Kumar Rai, AC
 (IC-70780) Kundan Kumar, Inf
 (IC-70781) Ajit Singh Negi, Inf
 (IC-70782) Udit Pant, Inf
 (IC-70783) Bhawesh Ranjan, Inf
 (IC-70784) Aditya Sharma, Arty
 (IC-70785) Jaskaran Singh, Arty
 (IC-70786) Abhinav Marwal, Engrs
 (IC-70787) Lalit Mohan Palariya, Inf
 (IC-70788) Deore Anup Bipinchandra, Arty
 (IC-70789) Shete Umesh Bandopant, Inf
 (IC-70790) S P Deepak, Arty
 (IC-70791) Kumar Vaibhav, AAD
 (IC-70792) Santanu Bauri, Inf
 (IC-70793) Gaurav Grewal, EME
 (IC-70794) Ankit Khattri, Inf
 (IC-70795) Anand Kumar N, Arty
 (IC-70796) Jeewan Singh, Inf
 (IC-70797) Sheilendra Singh Choudhary, Arty
 (IC-70798) Vishal Nanda, Inf
 (IC-70799) Vinay Rai, Inf
 (IC-70800) Abhinit Kumar Gaur, EME
 (IC-70801) Srinivasan S, Mech Inf
 (IC-70802) Lakshay, Inf
 (IC-70803) Arun Abey Mathew, Inf
 (IC-70804) Bhupinder Singh, SC, Inf
 (IC-70805) Abhinav Srivastava, AAD
 (IC-70806) Sumit Sheoran, AC

(IC-70807) Pankaj Dahiya, Engrs
 (IC-70808) Bandhe Rajesh Shriram, Inf
 (IC-70809) Shaurya Rana, Inf
 (IC-70810) Alokik Dogra, Inf
 (IC-70811) Abusayeed G Patel, Arty
 (IC-70812) Vikas Kumar Singh, Inf
 (IC-70813) Amit D Warang, Inf
 (IC-70814) Deepak Bhatt, Inf
 (IC-70815) Prince B Ramesh, Engrs
 (IC-70816) Dushyant Singh Lamba, AC
 (IC-70817) Ashutosh Kumar Pandey, Inf
 (IC-70818) Pramoda P Prabhu, Inf
 (IC-70819) Wadhekar Sudhakar Ramdas, Inf
 (IC-70820) Ashok Bhardwaj, Mech Inf
 (IC-70821) Yogendra Kumar Rai, Inf
 (IC-70822) Akshay Kishore Dekhane, Inf
 (IC-70823) Sharad Chandra Singh, Arty
 (IC-70824) Ajit Kumar Pradhan, Inf
 (IC-70825) Harmalkar Nikhil Prakash, AAD
 (IC-70826) Akhilesh Chauhan, Inf
 (IC-70827) Harpreet Singh, Engrs
 (IC-70828) Dalvi Jeetendra Khandu, AC
 (IC-70829) Ravi Kant Kushwaha, Inf
 (IC-70830) Ambrish Kumar Upadhyay, Inf
 (IC-70831) Sachin Kumar, ASC
 (IC-70832) Pratyush Kumar Singh, EME
 (IC-70833) Bhanu Teja A, AAD
 (IC-70834) Avinash Kumar Singh, Inf
 (IC-70835) Martin Arvind S, Arty
 (IC-70836) C A Amit Prasad, AC
 (IC-70837) Amit Semwal, Inf
 (IC-70838) Deepak Mehta, Arty
 (IC-70839) Jitendra Prajapati, Inf
 (IC-70840) Sandeep Dhull, Mech Inf
 (IC-70841) Bhupesh Singh Chuphal, AAD
 (IC-70842) Kalyanbabu Maimomcha, Inf
 (IC-70843) Vipin Chandra Dandriyal, Inf
 (IC-70844) Anil Kumar, Inf
 (IC-70845) Dalvi Nakul Jayant, Inf
 (IC-70846) Avneesh Anand Jha, AAD

(IC-70847) Sandeep Bhartiya, Inf	(IC-70886) Vikas Sharma, Inf
(IC-70848) Gauravjeet Chawla, EME	(IC-70887) Yashawant A Abhyankar, Arty
(IC-70849) Alok Kumar Mondal, Arty	(IC-70888) Narahari V, Arty
(IC-70850) Anoop V, Inf	(IC-70889) Prabhat Kumar, Arty
(IC-70851) Abhishek Kulkarni, Engrs	(IC-70890) Ashok Kumar Singh, Engrs
(IC-70852) Shailendra Singh Patel, ASC	(IC-70891) Deepak Kumar Mulia, Inf
(IC-70853) Sandeep Sharma, Inf	(IC-70892) Netke Deepak Keshav, Arty
(IC-70854) Makan Indrapratap Singh Nirmal Singh, AC	(IC-70893) Vineeth V, Inf
(IC-70855) Ashish Awasthi, Inf	(IC-70894) Dinesh Singh, Inf
(IC-70856) Rajiv Kumar, Arty	(IC-70895) Deepak Mishra, Arty
(IC-70857) Jagpreet Singh Sodhi, Arty	(IC-70896) Kulkarni Aditya Dattatraya, Inf
(IC-70858) Rohit Sheoran, Inf	(IC-70897) Nishant Karol, AC
(IC-70859) Prashant Priyadarshi, Arty	(IC-70898) Ajith V Nair, Arty
(IC-70860) Deepak Kumar Samal, Arty	(IC-70899) Ajay Singh Berwal, EME
(IC-70861) Ankit Misra, Arty	(IC-70900) Saurabh Kesri, Engrs
(IC-70862) Ramashayam Sai Anvesh, Inf	(IC-70901) Mohd Ali Arzoo Shanawaz, Arty
(IC-70863) Sandeep Kumar, Arty	(IC-70902) Aditya Malhota, AC
(IC-70864) D R Sandeep, Arty	(IC-70903) Yashvir, Inf
(IC-70865) Vishwnath Singh, Arty	(IC-70904) Madhu Manish, Arty
(IC-70866) Vineet Jagdev, Inf	(IC-70905) Narender Singh, Inf
(IC-70867) Vicky Gahlyan, Inf	(IC-70906) Divyendu Shekhar Dubey, Mech Inf
(IC-70868) Navpreet Singh Baath, AC	(IC-70907) Subhash Chandran Nair B, AAD
(IC-70869) Amit Bhardwaj, Engrs	(IC-70908) Tushar Singh, EME
(IC-70870) Priyank Satish Nimbalkar, Inf	(IC-70909) Vaibhav Upasni, Engrs
(IC-70871) Balraj Singh Randhawa, Engrs	(IC-70910) Manish Kumar Kadian, Inf
(IC-70872) Satish Kumar Singh, ASC	(IC-70911) Chandra Prakash Singh, Inf
(IC-70873) Kumar Saurabh, Arty	(IC-70912) Iragavarapu V S Ranganadh, Arty
(IC-70874) Paritosh Nath Shukla, Arty	(IC-70913) K Parthiban, Arty
(IC-70875) S Probir Singha, Inf	(IC-70914) Y Ashish Kumar, Inf
(IC-70876) Prashant Kishore Mishra, AC	(IC-70915) Rahul Mahajan, Inf
(IC-70877) Rajneesh Mehta, Inf	(IC-70916) R S Obed, ASC
(IC-70878) Nandlal, Arty	(IC-70917) Sanjay Bisht, Inf
(IC-70879) Pawan Kumar Singh, AAD	(IC-70918) Angad Kumar, Arty
(IC-70880) Anup Pratap Singh, Arty	(IC-70919) Ishitab Vashisht, AC
(IC-70881) Ganesh Natarajan, Mech Inf	(IC-70920) Neeraj Beniwal, Inf
(IC-70882) Sahil, Arty	(IC-70921) Sandeep Kumar Nehra, Inf
(IC-70883) Vijay Kumar, AAD	(IC-70922) Neelabh Bharadwaj, Inf
(IC-70884) Debdulal Maity, Arty	(IC-70923) Sourabh Sirohi, Inf
(IC-70885) Deepak Rastogi, Inf	(IC-70924) Vivek Kumar, Arty

(IC-70925) Rahul Chandran, Arty	(IC-70965) Jyotish Kumar Mangalam, Inf
(IC-70926) Vishwanath, Arty	(IC-70966) Udai Singh Parmar, Inf
(IC-70927) Sujeet Kumar, Arty	(IC-70967) Tapadia Akash Ashok, Inf
(IC-70928) Ashutosh Sharma, Arty	(IC-70968) Pushpendra Singh Rajput, Mech Inf
(IC-70929) Naresh Kumar Mahla, Arty	(IC-70969) Anil Kumar, Arty
(IC-70930) Vikram Gaur, Inf	(IC-70970) Gaurav Sharma, Arty
(IC-70931) Rohit Rattan, Inf	(IC-70971) Deshmukh Vikrant Ajit, Inf
(IC-70932) S S Babu, AC	(IC-70972) Chandan Kumar, Arty
(IC-70933) Raman Kumar, Inf	(IC-70973) Amritesh Vikram, Engrs
(IC-70934) Rohan Thampi, Inf	(IC-70974) Harsh Wardhan, AAD
(IC-70935) Rajeev Demra, Inf	(IC-70975) Prashant Sawant, Engrs
(IC-70936) Roopak Kumar Thakur, Inf	(IC-70976) Kumar Gaurav, Inf
(IC-70937) Shreedhar Hiremath, Inf	(IC-70977) Pulkit Dewan, EME
(IC-70938) Sumit Sardana, Arty	(IC-70978) Arun D S, Arty
(IC-70939) Jani A C, Arty	(IC-70979) Harsha G R, AC
(IC-70940) Ravinder Singh Bisht, Inf	(IC-70980) Kumar Gaurav, Arty
(IC-70941) Vishal Dwivedi, Inf	(IC-70981) Vijay Thapa, Inf
(IC-70942) Sabastian M, Inf	(IC-70982) Manmath Khandual, Arty
(IC-70944) Pulakesh Roy, Arty	(IC-70983) Rahul Rana, Inf
(IC-70945) Rakesh Chandra Bhatt, EME	(IC-70984) Rohit Kumar Barik, AC
(IC-70946) Anubhav Thapa, Inf	(IC-70985) Dharmendra Singh, AOC
(IC-70947) Avanish Shukla, Inf	(IC-70986) Biranchi Narayan Tripathy, AAD
(IC-70948) Vikas Rana, Arty	(IC-70987) Mohit Kumar Jain, Arty
(IC-70949) Akhil Suhag, Inf	(IC-70988) Virendra Singh, Inf
(IC-70950) Deepak Khurana, AAD	(IC-70989) Raj Kumar, Inf
(IC-70951) Naveen Sharma, AOC	(IC-70990) Linson Lawrence, Inf
(IC-70952) Karan Kalra, AC	(IC-70991) Tushar Sharma, Arty
(IC-70953) Sandeep Kumar Yadav, Arty	(IC-70992) Gooty Balaji Niranjan, Arty
(IC-70954) Rahul Seth, Inf	(IC-70993) S Shyam Saseethar, Engrs
(IC-70955) Anver Raza Kazmi, Arty	(IC-70994) Priyank Srivastava, Inf
(IC-70956) Waikhom Hemanta Singh, AOC	(IC-70995) Raipure Vishal Bhagwan, Mech Inf
(IC-70957) Ravindra Negi, EME	(IC-70996) Deepak Nandal, Inf
(IC-70958) Kunal Pal, Sigs	(IC-70997) Saurabh Singh, Inf
(IC-70959) Mukesh Negi, Mech Inf	(IC-70998) Amarbir Singh Bhinder, Inf
(IC-70960) Bijender Singh, ASC	(IC-70999) Raman Bhardwaj, Arty
(IC-70961) Arora Abhijitsingh Mahender Singh, Inf	(IC-71000) Rupak Kumar, Arty
(IC-70962) Charanjit Singh, Inf	(IC-71001) Shwetank Saran, AC
(IC-70963) K L Raghvendra, Arty	(IC-71002) Sudipto Saha, Engrs
(IC-70964) Siddharth Saurav, Arty	(IC-71003) Alphy Yeldho K, AAD

(IC-71004) Ramandeep Singh Negi, Inf	(IC-71041) Pavneet Narula, AAD
(IC-71005) T R Swamydass, Arty	(IC-71042) Deepak Singh Bist, Inf
(IC-71006) Gaurav Negi, Inf	(IC-71043) Prashant Sanwal, Inf
(IC-71007) Rahul, Arty	(IC-71044) Animesh Rawat, Inf
(IC-71008) Dilip Singh Shekhawat, Inf	(IC-71045) Lokesh Chouhan, Arty
(IC-71009) Mayuresh Ramesh Barbhai, Inf	(IC-71046) Ravinder Singh Manhas, Inf
(IC-71010) Japender Pal Singh, Inf	(IC-71047) Shishank Sharma, AC
(IC-71011) Varun Kumar Chaudhary, Arty	(IC-71048) Dhruv Rajan, Inf
(IC-71012) Ranbir Singh, Arty	(IC-71049) Akash Pandey, Inf
(IC-71013) R Naveen Kumar, Inf	(IC-71050) Rahul Kumar Rai, Inf
(IC-71014) Ashwani Kumar, EME	(IC-71051) Amit Saxena, AAD
(IC-71015) Deepak Singh Manhas, AAD	(IC-71052) Shashi Kishor, Arty
(IC-71016) Manish Kumar Pandey, Arty	(IC-71053) Sonam Kumar Jaiswal, EME
(IC-71017) Anuj Kumar, AC	(IC-71054) Anurag Upadhyay, Arty
(IC-71018) Avinash Kumar, Inf	(IC-71055) Prabir Gogoi, Inf
(IC-71019) Anupam Sharma, ASC	(IC-71056) Rajiblochan Pradhan, Arty
(IC-71020) Rana Ravinder Singh, Engrs	(IC-71057) Kuldeep Sharma, Inf
(IC-71021) Shinde Dhanraj Dilip, Arty	(IC-71058) Saksham Sharma, Inf
(IC-71022) Gothe Saurabh Anil, Inf	(IC-71059) Vikash Kumar, Arty
(IC-71023) S Praveen Kumar, AC	(IC-71060) Arundeep Singh, Engrs
(IC-71024) Vikram Shekhawat, Inf	(IC-71061) Vijay Kumar Sharma, Arty
(IC-71025) Nikhil Rathore, Inf	(IC-71062) Gaurav Bisht, Arty
(IC-71026) Nagesh Prashar, Engrs	(IC-71063) Vishnu Datta Trivedi, Inf
(IC-71027) Piyush Kaushal, AAD	(IC-71064) Shailendra Singh Mehta, Engrs
(IC-71028) Heemanshu Yadav, Inf	(IC-71065) Jitender Singh, Engrs
(IC-71029) Himanshu Ale, Inf	(IC-71066) Harshwardhan Dadhich, Inf
(IC-71030) Divesh Poswal, Inf	(IC-71067) Ravi Kumar, Inf
(IC-71031) Anil Kumar Loochach, ASC	(IC-71068) Tanuj Nautiyal, Inf
(IC-71032) Ullas Kumar V, Inf	(IC-71069) Rohit Porwal, Arty
(IC-71033) Rajbir, Inf	(IC-71070) Libu Abraham, Arty
(IC-71034) Atul Dinesh Midha, Mech Inf	(IC-71071) Ashish Mishra, Arty
(IC-71035) Shwetej, Inf	(IC-71072) Kamal Thawani, AC
(IC-71036) Abhineet, Inf	(IC-71073) Sanap Kailas Pandharinath, Inf
(IC-71037) Lokendra Singh Shekhawat, Inf	(IC-71074) Rajesh Joshi, AAD
(IC-71038) Santosh Negi, Inf	(IC-71075) Sahil Khurana, Arty
(IC-71039) Sunil Sangwan, Inf	(IC-71076) Vikas Katoch, Inf
(IC-71040) Varun Kumar Gundavarapu, EME	(IC-71077) Alok Kumar Pandey, Mech Inf

(IC-71078) Leetul Gogoi, ASC	(IC-71115) Mallinatha, Sigs
(IC-71079) Bhupinder Singh Ujjwal, AC	(IC-71116) Tribhuvan Bisht, EME
(IC-71080) Ankit Negi, Inf	(IC-71117) Gaurav Pant, Engrs
(IC-71081) Vipin Kumar Gaur, Inf	(IC-71118) Shebin B Kutty, EME
(IC-71082) Praveen Kumar Parekh, Arty	(IC-71119) Sareth VR, EME
(IC-71083) Surendra Singh, Inf	(IC-71120) Priyesh Srivastava, Engrs
(IC-71084) Ashwin Shah, Inf	(IC-71121) Ravinder Bhakher, EME
(IC-71085) Anogh Kumar Chanda, Inf	(IC-71122) Chandan Vishwakarma, Engrs
(IC-71086) Jagdish Somappa Rachannavar, Engrs	(IC-71123) Madhur Malik, Sigs
(IC-71087) Vankul Sharma, Inf	(IC-71124) Sandeep Kumar, EME
(IC-71088) S Gautham, Arty	(IC-71125) Ashish Dhankar, Sigs
(IC-71089) Vikram Singh Kadian, EME	(IC-71126) Virendra Keshari, Sigs
(IC-71090) Shivesh Singh Thapa, Inf	(IC-71127) Kuldeep Singh, Engrs
(IC-71091) Siddharth Singh, AC	(IC-71128) Neelkant Kumar, Sigs
(IC-71092) Atul Yadav, Inf	(IC-71129) Daksh Deep Vishnoi, Engrs
(IC-71093) Kshitij Shukla, AAD	(IC-71130) M Surendra Kumar, EME
(IC-71094) Amit Kumar, Inf	(IC-71131) Gaurav Raj, Sigs
(IC-71095) Vijendra Singh Shekhawat, Arty	(IC-71132) Arshdeep Singh Gill, Sigs
(IC-71096) Daljeet Singh Dillo, Inf	(IC-71133) Vivek Negi, EME
(IC-71097) Nishant Kumar, Inf	(IC-71134) Deepanshu Baloonie, Engrs
(IC-71098) Umesh Chandra Joshi, Arty	(IC-71135) Vishal Mangain, Sigs
(IC-71099) Harish Sharma, Arty	(IC-71136) Rijesh Jayarajan, AAD
(IC-71100) Harish Kumar Vijendran, Inf	(IC-71137) S Kochelvan, EME
(IC-71101) Ashish Ranjan Dubey, Inf	(IC-71138) Himanshu Rawat, EME
(IC-71102) Srikanth L, Engrs	(IC-71139) Varun Sharma, Sigs
(IC-71103) Gadgil Sachin Shrikant, Arty	(IC-71140) Anand B, EME
(IC-71104) VM Vikram Veeraraghavan, Arty	(IC-71141) Rahul Hermon, Sigs
(IC-71105) Upkar Tiwari, Arty	(IC-71142) Virraaj Gulati, EME
(IC-71106) Tarun Kumar, Mech Inf	(IC-71143) Jugal Sharma, Engrs
(IC-71107) Raghav Khanduri, Inf	(IC-71144) Lakshay Jain, Inf
(IC-71108) Yadvinder Singh Bhau, AC	(IC-71145) Anirudha Ramesh Kumar Sunkara, Inf
(IC-71109) Saptarshi Sarkar, AAD	(IC-71146) Nair Sainath Somanathan, Engrs
(IC-71110) Sooraj R, Arty	(IC-71147) Abhishek Ranade, ASC
(IC-71111) Dablu Mishra, EME	(IC-71148) Sriraam S V, Sigs
(IC-71112) Radheshyam Yadav, EME	(IC-71149) Rajat Bahl, Engrs
(IC-71113) Surender Singh Bisht, Engrs	(IC-71150) Ashish Shah, EME
(IC-71114) Deo Ameya Gajanan, Sigs	(IC-71151) Gagandeep Mishra, Engrs

(IC-71152) Laksh Sharma, Sigs	INDIAN AIR FORCE
(IC-71153) Mohit Kumar Sharma, Sigs	FLYING BRANCH
(IC-71154) Suyash Raghuvanshi, EME	To be Subs Air Marshal
(IC-71155) Anurag Kumar, EME	Rank & Name, No. BR, Date
(IC-71156) Ronald Daniel D'Souza, Engrs	Air Mshl R Singh AVSM VM (13980), F(P), 01 Dec 2010
(IC-71157) Namram Ashokumar Meitei, Engrs	Air Mshl J Chauhan AVSM VSM (14079), F(P), 01 Jan 2011
(IC-71158) Ankur Gupta, EME	Air Mshl RK Jolly VM VSM (14083), F(P), 01 Jan 2011
(IC-71159) M Krishna Chaitanya, EME	Air Mshl RK Sharma AVSM VM (14088), F(P), 01 Feb 2011
(IC-71160) Manish Nair, Engrs	Air Mshl PK Roy AVSM VM VSM (14100), F(P), 01 Feb 2011
(IC-71161) Sankalp Soni, Sigs	Air Mshl D Singh AVSM VM (14553), F(P), 01 Feb 2011
(IC-71162) Prashant Nema, Sigs	To be Subs Air Cmde
(IC-71163) Deepak Jain, Sigs	Air Cmde (Actg) SK Ghotia (16575), F(P), 01 Sep 2009
(IC-71164) PA Appacha, Sigs	[His name will appear below Air Cmde HJ Walia (16418) F(N) and above Air Cmde RD Mathur (16772) F(P) in the combined gradation list]
(IC-71165) Abhineet Kumar, Sigs	Air Cmde (Actg) HS Arora (16557), F(P), 15 Jun 2009/02 Mar 2009 (for seniority purpose only)
(IC-71166) Shobhit Mehta, Sigs	[His name will appear below Air Cmde SJ Nanodkar (16555) F(P) in the combined gradation list]
(IC-71167) Himanshu Singh, Sigs	To be Subs GP Capt (ADM BRANCH)
(IC-71168) Abhishek Biswas, EME	GP Capt (Actg) P Anand (18320), ADM, 28 Jun 2010
(IC-71169) Sushil Kumar, Sigs	[His name will appear below GP Capt AK Bhatnagar (18319) ADM and above GP Capt PK Ghosh (18324) ADM in the combined gradation list]
(IC-71170) Singam Jeevan Singh, Engrs	GP Capt (Actg) S R Menon (18608), ADM, 02 Aug 2010
(IC-71171) Vikram Jit Singh Dahiya, EME	GP Capt (Actg) DK Pandey (18614), ADM, 10 Nov 2010
(IC-71172) Ankit Budh Raja, Sigs	A K SINGH
(IC-71173) Arunbhaskar K, EME	Dy Dir Personnel (Officer)-2B
(IC-71174) R Vamshi Krishnan, Engrs	FINANCE DIVISION
(IC-71175) Kshetrimayum Changkhomba, Engrs	No. 236, dated 25th April 2011—The President is pleased to retire Smt. Nita Kapoor, Secretary (Defence Finance), Ministry of Defence (Finance) from Government Service with effect from 31.03.2011 (AN) on attaining the age of superannuation.
(IC-71176) O Jotin Kumar, Arty	The President is pleased to retire Smt. Chanderkanta, Section Officer, Ministry of Defence (Finance) from Government Service with effect from 31.03.2011 (AN) on attaining the age of superannuation.
(IC-71177) Viplav Bhattacharya, EME	R C MEENA
(IC-71178) Deepak Singh, Engrs	Asstt Financial Adviser (E)
(IC-71179) Deepanjan Bandyopadhyay, EME	
(IC-71180) Patil Gururaj Pralhad, Engrs	
(IC-71181) Vivek Subramanian, EME	
(IC-71182) Kale Vikrant Khanderao, Arty	
(IC-71183) Satyen Kumar, EME	

—13 Dec 2010

RAHUL SHARMA
Lt Col
AMS 8B

AIR BRANCH

No. 235, dated 25th April 2011—The President is pleased make the following substantive promotions :—

ARMY BRANCH

CORRIGENDUM

No. 237, dated 26th April 2011—In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification Part I Section IV published on 02 Apr 2005, 25 Jun 2005, 15 Oct 2005 and 29 Oct 2005 under the heading "Regular Army, Permanent Commission", and sub heading "Capt to be Maj" the following amendment is made :—

For : 10 Dec 2004

Read : 11 Dec 2004

RAHUL SHARMA
Lt Col
AMS 8B

AIR BRANCH

No. 238, dated 26th April 2011—The President is pleased to make the following amendment to date of grant of substantive promotion published in Gazette No. 44/561/09 :—

INDIAN AIR FORCE

ACCTS BRANCH

Date of grant of Substantive Rank of Air Vice Mshl to
AVM SK Gagneja (14544) Accts

For : 02 Mar 09

Read : 01 Mar 09

A K SINGH
Dy Dir Personnel (Officer)-2B